



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]
No. 16]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1979/वैशाख 1, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1979/VAISAKHA 1, 1901

इस भाग में चिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I) PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 12th April, 1979

G.S.R. 560.—In exercise of the powers conferred by Article 145 of the Constitution and all other powers enabling it in this behalf, the Supreme Court hereby makes, with the approval of the President, the following rules further to amend the Supreme Court Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Rules, 1966, in rule 5 of Order IV, in Clause (ii), for paragraph (b), the following paragraph shall be substituted namely :—

“(b) the Chief Justice may, in appropriate cases, grant exemption—

(1) from the requirement of training under this clause in the case of an advocate, whose name is borne on the roll of any State Bar Council and has been borne on such roll for a period of not less than seven years; and

(2) from the requirement of clause (i) and from training under this clause in the case of an advocate, having special knowledge or experience in law.”

[No. F. 6/79 AR (Sec. I)]

By Order of the Court

R. NARASIMHAN, Registrar (Judl.)

विधि न्याय और कम्पनी कार्प मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

सां० कां० नि० 561.—केन्द्रीय सरकार, विधिल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 2 और 8 तथा नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुमारी रेखा शर्मा, सर्वश्री विजय किशन, दलजीत सिंह, प्रदण कुमार, एम० वीरप्पा, रवीन्द्र सेठी और एम० चन्द्रशेखरन, अधिवक्ताओं को, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी ऐसे वाद के संबंध में, जो किसी रेल प्रशासन और आय-कर विभाग से संबंधित वाद नहीं है, उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की मूल शाखा और अधीनी शाखा में सरकारी प्लीडरों के रूप में नियुक्त करती है।

[का० सं० 24(5)/79-न्यायिक]

एन० सी० गुप्ता, चयर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 2nd April, 1979

G.S.R. 561.—In exercise of the powers conferred by rules 2 & 8 and clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the

First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby appoints Miss Rekha Sharma, S/Shri Vijay Kishan, Daljit Singh, Arun Kumar, M. Veerappa, Ravinder Sethi and M. Chandrasekharan, Advocates, as Government Pleaders on the Original Side and the Appellate Side of the High Court of Delhi for the purposes of the said Order in relation to any suit by or against the Central Government, not being a suit relating to any Railway Administration and the Income-tax Department.

[No. F. 24(5)/79-JudL.]

N. C. GUPTA, Additional Legal Adviser

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

(Department of Justice)

New Delhi, the 9th April, 1979

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by Section 23 read with sub-section (1) of section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st November, 1966.

2. In the High Court Judges Rules, 1956, in rule 2, in the first proviso, after words "High Court of Delhi" the following words shall be inserted, namely —

"and a Judge of the High Court of Punjab and Haryana".

EXPLANATORY MEMORANDUM

Rule 2 of the High Court Judges Rules, 1956 lays down that the conditions of service of a Judge of a High Court for which no express provision has been made in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, shall be, and shall from the commencement of the Constitution be deemed to have been determined by the rules for the time being applicable to a member of the Indian Administrative Service holding the rank of Secretary to the Government of a State in which the principal seat of the High Court is situated. There are two High Courts namely, the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court which are situated in the Union Territories of Delhi and Chandigarh respectively. There is a special provision in the first proviso to Rule 2 of the High Court Judges Rules, 1956 for determining certain conditions of service of the Judges of the Delhi High Court. There is, however, no such provision for the Punjab and Haryana High Court in the rules at present. The Union Territory of Chandigarh was formed as and from 1st November, 1966 and before that date it was part of the undivided Punjab State. It is, therefore necessary to make provision in respect of Punjab and Haryana High Court in the High Court Judges Rules with effect from 1st November, 1966 and give retrospective effect to the amendment. It may be mentioned in this connection that though the High Court Judges Rules were framed in 1956, Rule 2 has been given retrospective effect from the commencement of the Constitution.

2. No Judge is likely to be affected adversely by the retrospective effect being given to the High Court Judges (Amendment) Rules, 1979.

[No. 66/22/78-Jus.]

P. K. KATHPALIA, Joint Secy.

शुद्ध संश्लेष

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979

सांकांति 563.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, दिल्ली तथा ब्रिजमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दिल्ली तथा ब्रिजमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली तथा ब्रिजमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियम, 1971 की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

सांकांति 562.—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 नवम्बर, 1966 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में, नियम 2 में, प्रथम परन्तुक में, "दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश"।

व्याख्यात्मक भाषण

उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 का नियम 2 यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सेवा की शर्तें, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो, उन नियमों द्वारा निश्चित की जायेगी और संविधान के प्रारम्भ से निश्चित की हुई मानी जायेंगी जो नियम उस समय उस राज्य की सरकार के सचिव के पद पर कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य पर लागू होते हैं, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय स्थित हो। दो उच्च न्यायालय अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो क्रमशः दिल्ली तथा बम्बईगढ़ संघ शासित क्षेत्रों में स्थित हैं। उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2 के पहले परन्तुक में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुछ सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिये एक विशेष प्रावधान है। तथापि, फिलहाल नियमों में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के संबंध में इस समय कोई प्रावधान नहीं है। बम्बईगढ़ को पहली नवम्बर, 1966 से संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था और इस तारीख से पहले यह अधिभाजित पंजाब राज्य का भाग था। इस लिये पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के संबंध में उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियमों में पहली नवम्बर, 1966 से प्रावधान करना और उससे संबंधित संशोधन को पिछली तारीख से लागू करना आवश्यक है इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम 1956 में बताये गये थे फिर भी नियम 2 को संविधान लागू होने की तिथि से अर्थात् पीछे की तारीख से लागू किया गया है।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1979 को पिछली तारीख से लागू करने से किसी न्यायाधीश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

[सं० 66/22/78—न्याय]

पी० के० कठपालिया, संयुक्त सचिव

अनुसूची 1

(नियम 4 देखें)

सेवा की प्राधिकृत स्थाई संख्या और इसमें सम्मिलित पदों का स्वरूप निम्न प्रकार है :—

स्वीकृत संख्या :

1. दिल्ली प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	114
2. प्रभुमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधीन विशिष्ट पद	8
3. प्रतिनियुक्ति, छुट्टी तथा प्रशिक्षण आरक्षण	39
कुल	161

उक्त संख्या में निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं :—

(क) दिल्ली प्रशासन :

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन)	1
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व तथा मुख्यालय)	1
3. समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक व संयुक्त विकास आयुक्त	1
4. सहायक आयुक्त, बित्री कर	3
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
6. संयुक्त निदेशक, सिविल पूर्ति	1
7. सहायक निदेशक, सिविल पूर्ति	1
8. अधर सचिव	9
9. सहायक विकास आयुक्त	3
10. राजस्व सहायक	1
11. भूमि अर्जन समाहर्ता	4
12. जिला वसूली अधिकारी	1
13. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	21
14. उप रोजगार अधिकारी/उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी/रोजगार सम्पर्क अधिकारी	6
15. बिक्रीकर अधिकारी	30
16. मनोरंजन-कर, अधिकारी स्टाम्प कलक्टर तथा जिला स्टाम्प तथा पंजीकरण अधिकारी	1
17. जिला उत्पाद-शुल्क अधिकारी	1
18. संयुक्त निदेशक, रोजगार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा	1
19. सहायक आवास आयुक्त	7
20. उद्योग उप-आयुक्त	1
21. शिक्षा संयुक्त निदेशक	1
22. प्रशासनिक अधिकारी, एन सी सी/आर सी सी	1
23. प्रशासनिक अधिकारी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज	1
24. सहायक निदेशक (रोजगार)	1
25. नजरत अधिकारी	1
26. भूमि सुधार व भूमि प्रबंध अधिकारी	1
27. मुख्य कार्यकारी पार्षद/कार्यकारी पार्षद के सचिव	4
28. उद्योग संयुक्त निदेशक	1
29. सहायक आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	1
30. अपर मनोरंजन-कर अधिकारी	1
31. स्टाम्प कलक्टर	1
32. प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्टाचार-नियंत्रण संगठन	1
33. प्रशासनिक अधिकारी, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	1
34. प्रशासनिक अधिकारी, नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल	1
35. प्रशासनिक अधिकारी, परिवार कल्याण	1
36. सतर्कता अधिकारी, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय	1
कुल	114

(ख) प्रभुमान तथा निकोबार प्रशासन :

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट	1
2. सहायक आयुक्त, उत्तर तथा मध्य अण्डमान, मायाबन्दर	1
3. सहायक आयुक्त, निकोबार	1
4. सहायक आयुक्त, बन्दोबस्त	1
5. उद्योग अधिकारी	1
6. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार	—
7. सहायक आयुक्त, दक्षिण प्रभुमान	1
8. पूर्ति अधिकारी	1
9. नियंत्रक, प्रभुमान श्रम बल	1
कुल (ख)	8

(ग) आरक्षण :

1. 122 का 12½ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति आरक्षण	15
2. 122 का 10 प्रतिशत छुट्टी आरक्षण	12
3. 122 का 10 प्रतिशत प्रशिक्षण आरक्षण	12
कुल (ग)	39
कुल	161

[सं० 14012/3/76-यू टी एस]

पी० वी० जयकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th April, 1979

G.S.R. 563—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, namely:—

(1) These rules may be called the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For Schedule I to the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE I

(See rule 4)

The authorised permanent strength of Service and the nature of the posts included in it are as follows:—

Sanctioned Strength :

1. Specific posts under the Delhi Administration	114
2. Specific posts under the Andaman and Nicobar Administration	8
3. Deputation, leave and training reserves	39

Total 161

The above figures including the following posts :—

(a) Delhi Administration :

1. Additional District Magistrate (Land Acquisition).	1
2. Additional District Magistrate (Revenue-cum-Headquarters).	1
3. Joint Director of Social Welfare-cum-Joint Development Commissioner	1
4. Assistant Commissioner, Sales Tax	3
5. Deputy Registrar of Co-operatives Societies	1
6. Joint Director, Civil Supplies	1
7. Assistant Director, Civil Supplies	1
8. Under Secretary	9
9. Assistant Development Commissioner	3
10. Revenue Assistant	1
11. Land Acquisition Collector	4
12. District Collection Officer	1
13. Magistrate 1st Class	21
14. Deputy Employment Officer/Sub-Regional Employment Officer/Employment Liaison Officer	6
15. Sales Tax Officer	30
16. Entertainment-tax Officer, Collector of Stamps and District Stamp and Registration Officer	1
17. District Excise Officer	1
18. Joint Director of Employment, Training and Technical Education	1
19. Assistant Housing Commissioner	7
20. Deputy Director of Industries	1
21. Joint Director of Education	1
22. Administrative Officer, NCC/RCC	1
23. Administrative Officer, Maulana Azad Medical College	1
24. Assistant Director (Employment)	1
25. Nizamat Officer	1
26. Land Reform-cum-Land Management Officer	1
27. Secretary to Chief Executive Councillor/Executive Councillors	1
28. Joint Director of Industries	1
29. Assistant Commissioner, Excise	1
30. Additional Entertainment Tax Officer	1
31. Collector of Stamps	1
32. Administrative Officer, Drugs Control Organisation	1
33. Administrative Officer, Din Dayal Upadhyay Hospital	1
34. Administrative Officer, Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital	1
35. Administrative Officer, Family Welfare	1
36. Vigilance Officer, Dte. of Training and Technical Education	1

Total (a) 114

(b) Andaman and Nicobar Administration;

1. Additional District Magistrate	1
2. Assistant Commissioner, North and Middle Andamans, Mayabunder	1
3. Assistant Commissioner, Nicobars	1
4. Assistant Commissioner, Settlement	1
5. Industries Officer	1

6. Assistant Commissioner, South Andaman	1
7. Supply Officer	1
8. Controller, Andaman Labour Force	1

Total (b) 8

(c) Reserves :

1. Deputation Reserve at 12 1/2% of 122	15
2. Leave Reserve at 10% of 122	12
3. Training Reserve at 10% of 122	12

Total (c) 39

Total 161

[No. 14012/3/76-UTS]

P. V. JAIKRISHNAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

सा० का० लि० 564—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (.....) संशोधन नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में, नियम 63 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“63. निःशुल्क छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत :—बल में मुख्य सुरक्षा गार्ड और उसके ताने का पंक्ति के सदस्यों को निःशुल्क छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत निम्नलिखित रूप में अनुज्ञेय होगी, अर्थात् :—

(क) अपने कुटुम्ब से अलग रहने की वशा में, प्रत्येक वर्ष इकट्ठी के स्थान से उनके अपने नगर के निकटतम रेल स्टेशन तक जाने और वहीं से वापस आने का एक निःशुल्क छुट्टी पास इस गार्ड के अर्जित रहते हुए मिलेगा कि वे दो वर्ष की बलाक अवधि में अपने कुटुम्ब के लिए छुट्टी यात्रा रियायत नहीं लेगे।

(ख) अपने कुटुम्ब के साथ रहते हुए यदि वे अपने कुटुम्ब के लिए छुट्टी यात्रा रियायत भी लेना चाहते हैं तो वे केवल अपने लिए ही दो वर्ष में एक बार अपने नगर तक जाने तथा वहीं से वापस आने के लिए निःशुल्क छुट्टी पास के हकदार होंगे और कुटुम्ब के सदस्यों को छुट्टी यात्रा रियायत (दो वर्ष की बलाक अवधि में एक बार) अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन मिलेगी।

(ग) कम से कम एक मास की अवधि की चिकित्सीय छुट्टी पर जाने के लिए निःशुल्क छुट्टी पास मिलेगा, परन्तु, यह तब जब यह प्रमाणित किया जाए कि वह बीमारी या क्षति जिसमें चिकित्सीय छुट्टी की आवश्यकता हुई है, बल के गठस्थ के अपने किसी दोष या उपेक्षा से उत्पन्न नहीं हुई है।

(घ) चार वर्ष में एक बार अथवा कुटुम्ब के सदस्यों के लिए भारत में किसी भी स्थान का यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत, उसी रूप में मिलेगी जिसमें वह अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुमति है।

परन्तु यह कि खण्ड (घ) के अधीन अनुमति छुट्टी यात्रा रियायत, खण्ड (क) के अधीन अनुमति निशुल्क छुट्टी पान और खण्ड (ख) के अधीन अनुमति छुट्टी यात्रा रियायत तथा निशुल्क छुट्टी पान के बदले होगी।

(2) वन में, पर्यवेक्षक अधिकारियों और सहायक उप-निरीक्षक तथा उससे ऊपर की शक्ति के सदस्य उसी प्रकार छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र होंगे जिन प्रकार के कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आदेशों के अनुसरण में अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।

[सं० ई० 24022/1/77-एल और आर (एफ पी-1)]

भुवेंद्र पाल, अवर सचिव

New Delhi, the 6th April, 1979

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (—Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force Rules, 1969, for rule 63, the following rule shall be substituted, namely :—

“63. Free Leave Pass and Leave Travel Concession :—

(1) free leave pass and leave travel concession shall be admissible to the members of the force of and below, the rank of Head Security Guard, as follows, namely :—

- (a) When living away from their families one free leave pass every year from places of duty to the railway stations nearest to their home towns and return, subject to the condition that they shall not avail themselves of the leave travel concession for their families in a block period of two years.
- (b) In case they are living with their families and propose to avail themselves of leave travel concession for their families also, they shall be entitled to free leave pass to home towns and return for self only once in two years and leave travel concession (once in a block period of two years) to the family members under the normal leave travel concession Rules applicable to other Central Government employees.
- (c) Free leave pass when processing on medical leave of duration of not less than one month, provided it is certified that the illness or injury which necessitated medical leave was not brought about by any fault or negligence on the part of the members of the Force.
- (d) Leave travel concession once in four years for self and family members to travel to any place in India as admissible to other Central Government employees :

Provided that the leave travel concession admissible under clause (d) shall be in lieu of the free leave pass admissible under clause (a) and the leave travel concession, and free leave pass admissible under clause (b).

2. Supervisory officers and members of the Force of, and above, the rank of the Assistant Sub-Inspector, shall be eligible to the same leave travel concession to which the other Central Government employees are eligible pursuant to the orders of the Central Government in this behalf.

No. E. 24022/1/77-L&R(FP.1)

BHUDEB PAL, Under Secy.

भारत का महापञ्जीकार का कार्यालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

सा० का० लि० 565:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय आन्ध्र-प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम आन्ध्र प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय गणपत्र में अतः प्रकाशन का तारीख से प्रचलित होंगे।

2. आन्ध्र प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में “सब 14 संगणक” की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“पदोन्नति 75%

स्थानान्तरण जिसके न हो सकन पर पदोन्नति द्वारा 25% ;”

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“पदोन्नति :—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।”

स्थानान्तरण :—राज्य/राज्य क्षेत्र में नियत जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय तथा प्रगणनों में कार्य-रत संगणक।

[सं० 3/3/78-प्रशा० 1]

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 9th April, 1979

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andhra Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973 namely :—

(2) They shall come into force on the date of their Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andhra Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andhra Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against “item 14 Computer”—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Promotion—75%

Transfer failing which by promotion—25% ;”

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Promotion.—Assistant Computers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations.”

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 366—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय असम (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम असम में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. असम में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 16 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष —

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति 75%

स्थानान्तरण जिसके तहत हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%;"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"पदोन्नति —110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।"

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Assam (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Assam (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Assam (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973 in the entries against "item 16 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%
Transfer failing
which by promotion—25%;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 567—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय उत्तर प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

होना (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम लक्षद्वीप में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लक्षद्वीप में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1976 की अनुसूची में "मद 5 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"पदोन्नति 75%

स्थानान्तरण जिसके तहत हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति —110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 567.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Lakshadweep (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Lakshadweep (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Lakshadweep (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1976, in the entries against "item 5 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%
Transfer failing
which by promotion—25%;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 568—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय उत्तर प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में "मद 18 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष --

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"पदोन्नति -- 110--180 रु. (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक मकलनकर्ता।

स्थानान्तरण :--राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक

जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनो में कार्यरत संगणक।

[मं० 3/3/78-प्रशा-1]

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Uttar Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Uttar Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Uttar Pradesh (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1974, in the entries against "item 18 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%

Transfer failing

which by promotion—25%:"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 569.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय त्रिपुरा (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम त्रिपुरा में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. त्रिपुरा में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में "मद 14 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष --

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :--110--180 रु. (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक मकलनकर्ता।

स्थानान्तरण :--राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनो में कार्यरत संगणक।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 569.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tripura (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tripura (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tripura (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 14 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%

Transfer failing

which by promotion—25%:"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 570.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय त्रिपुरा निजीवार द्वीप समूह (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम त्रिपुरा में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 13 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति 75%

स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andaman and Nicobar Islands (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andaman & Nicobar Islands (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Andaman and Nicobar Islands (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 13 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Promotion—75%
Transfer failing
which by promotion—25%,"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 571.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय गुजरात (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम गुजरात में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. गुजरात में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 17 संगणक" की प्रविष्टि के परन्तु :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति 75%

स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Gujarat (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Gujarat (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Gujarat (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 17 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%
Transfer failing
which by promotion—25%,"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 572.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय बिहार (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम बिहार में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बिहार में गणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मब 15 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 572.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Bihar (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Bihar (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Bihar (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 15 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%

Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 573.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्फुट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय पश्चिम बंगाल (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पश्चिम बंगाल में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

9 GI/79—2

2. पश्चिम बंगाल में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक और कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में मब 17 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :— अर्थात्

पदोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 573.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, West Bengal (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, West Bengal (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, West Bengal (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 17 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%

Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 574.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्फुट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय राजस्थान (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राजस्थान में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और घ पद) भर्ती नियम 1974 की अनुसूची में "मद 15 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रतिशत
"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%";

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

2. तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 16 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रतिशत
"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%";

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78—प्रशा० 1]

G.S.R. 574.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Rajasthan (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Rajasthan (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Rajasthan (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1974, in the entries against "item 15 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%
Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 574.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय तमिलनाडु और पाण्डिचेरी (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

G.S.R. 575.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tamil Nadu and Pondicherry (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tamil Nadu and Pondicherry (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Tamil Nadu and Pondicherry (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 16 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion—75%
Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा० का० नि० 575.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय तमिलनाडु और पाण्डिचेरी (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नागालैण्ड में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1976 की अनुसूची में "मद 8 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष —

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%";

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति—110-180 रु० (पूर्व संशोधन) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण.—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[स० 3/3/78-प्रशा० 1]

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Nagaland (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Nagaland (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Nagaland (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1976, in the entries against "item 8 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion—75%
Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad.1]

सा० का० नि० 577.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय उड़ीसा (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 से और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम उड़ीसा में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उड़ीसा में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में "मद 13 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष —

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%";

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति:—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण.—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[स० 3/3/78-प्रशा० 1]

G.S.R. 577.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Orissa (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Orissa, (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Orissa (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 13 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion—75 per cent
Transfer failing which by promotion—25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. 1]

सा० का० नि० 578.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय मेवालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम मेवालय में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

4 मेघालय में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में "मद 14 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"पदोन्नति 75 प्रतिशत
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर
पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत ;"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"पदोन्नति — 110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक सफलनकर्ता ।

स्थानान्तरण — राज्यों/मध्य राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनो में कार्यरत संगणक ।

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 578.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Meghalaya (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely —

1 (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Meghalaya (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Meghalaya (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 14 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry the following shall be substituted, namely —

"Promotion 75 per cent
Transfer failing
which by promotion 25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely —

"Promotion—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs 110—180 pre-revised)

Transfer—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations"

[No 3/3/78-Ad I]

सा०का०नि० 579—संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय पंजाब (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम पंजाब में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 पंजाब में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में "मद 18 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"पदोन्नति 75 प्रतिशत
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर
पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत ;"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"पदोन्नति — 110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक सफलनकर्ता ।

स्थानान्तरण — राज्यों/मध्य राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनो में कार्यरत संगणक ।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 579.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Punjab, (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely —

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Punjab (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Punjab (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in entries against "item 18 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely —

"Promotion 75 per cent
Transfer failing
which by promotion 25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely —

"Promotion—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs 110—180 pre-revised),

Transfer—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations"

[No 3/3/78-Ad I]

सा०का०नि० 580—संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय मणीपुर (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम मणीपुर में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मणिपुर में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में "मद 13 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रमोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर प्रमोन्नति द्वारा	25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रमोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक सफ़्टवेयरकर्मी।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासना में कार्यरत संगणक।

[सं० 3/3/78-प्रशा-1]

G.S.R. 580.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Manipur (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Manipur (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Manipur (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, in the entries against "item 13 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion	75 per cent ;
Transfer failing	
which by promotion	25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad II]

सांकां० 581—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय केरल (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केरल में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केरल में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में "मद 18 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रमोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर प्रमोन्नति द्वारा	25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रमोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक सफ़्टवेयरकर्मी।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासकों में कार्यरत संगणक।

[सं० 3/3/78-प्रशा-1]

G.S.R. 581.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Kerala (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations Kerala (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Kerala (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 16 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion	75 per cent ;
Transfer failing	
which by promotion	25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. II]

सांकां० 582—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय कर्णाटक (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती नियम 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कर्णाटक में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप ब पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्णाटक में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में "मद 12 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति	75%
स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधन) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्त्ता ।

स्थानांतरण :—राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।

[म० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 582.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Karnataka (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, namely: -

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Karnataka (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Karnataka, (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, in the entries against "item 12 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion	75 per cent;
Transfer failing which by promotion	25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad I]

सा०का०नि० 583.—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय मध्य प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में "मद 14" "संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति	75%
स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संशोधन) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्त्ता ।

स्थानांतरण :—राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।"

[म० 3/3/78-प्रशा० 1]

G.S.R. 583.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Madhya Pradesh, (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely: -

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Madhya Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations, Madhya Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 14 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion	75 per cent;
Transfer failing which by promotion	25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex officio Superintendent of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad I]

सा०का०नि० 584.—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय जम्मू व कश्मीर (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम जम्मू व कश्मीर में जनगणना कार्य अधीक्षक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. जम्मू व कश्मीर में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1974 की अनुसूची में "मद 17 संगणक" की प्रविष्टि के समकक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संगोष्ठि) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Jammu and Kashmir (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Jammu and Kashmir (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Jammu and Kashmir (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, in the entries against "item 17 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion	75 per cent ;
Transfer failing which by promotion	25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations, in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad I]

सा०का०नि० 585.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुत द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय महाराष्ट्र (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संगोष्ठि करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम महाराष्ट्र में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संगोष्ठि) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. महाराष्ट्र में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 15 संगणक" की प्रविष्टि के समकक्ष :—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति	75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा	25%

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति :—110-180 रु० (पूर्व संगोष्ठि) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता ।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक ।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 585.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Maharashtra (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Maharashtra (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Maharashtra (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 15 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion	75 per cent ;
Transfer failing which by promotion	25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सा०का०नि० 586.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुत द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय दिल्ली (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संगोष्ठि करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संगोष्ठि) नियम 1979 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 16 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष—

"(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति:—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण:—राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 586.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Delhi (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Delhi (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Delhi (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 16 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted namely:—

"Promotion 75 per cent;
Transfer failing which by promotion 25 per cent."

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs 110—180 pre-revised)

Transfer—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations"

[No. 3/3/78-Ad 1]

सां०का०वि० 587—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय में राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 10 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष:

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति:—110—180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण:—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 587.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, UT Chandigarh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, UT Chandigarh (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, UT Chandigarh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 10 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion 75 per cent;
Transfer failing which by promotion 25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations"

[No 3/3/78-Ad. 1]

सां०का०वि० 588—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय हरियाणा (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

"1 (1) इन नियमों का नाम हरियाणा में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हरियाणा में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् नियम 1973 की अनुसूची में "मद 17 संगणक" की प्रविष्टि के समर्थः—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति:—110-180 रु० (पूर्व संशोधन) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण:—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 588.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Haryana (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Haryana (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Haryana (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 17 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion 75 per cent;
Transfer failing
which by promotion 25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सां०का०नि० 589—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय हिमाचल प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अरुणाचल प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् (संशोधन) नियम 1979 होगा।

9 GI/79-3

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 अरुणाचल प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् नियम 1973 की अनुसूची में "मद 14 संगणक" की प्रविष्टि के समर्थः—

(क) स्तम्भ 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्तम्भ 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"पदोन्नति:—110-180 रु० (पूर्व संशोधन) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण:—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।"

[सं० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 589.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Arunachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Arunachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Arunachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 14 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion 75 per cent;
Transfer failing
which by promotion 25 per cent;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

सां०का०नि० 590—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय हिमाचल प्रदेश (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) अर्थात् (संशोधन) नियम 1979 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 हिमाचल प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 18 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष—

(क) स्लैब 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्लैब 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।

[म० 3/3/78-प्रशा०-1]

G.S.R. 590.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Himachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Himachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Himachal Pradesh (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 18 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion 75 per cent ;

Transfer failing which by promotion 25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No 3/3/78-Ad. I]

सं०का०नि० 591—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय गोवा, दमन दीव व दादरा नागर हवेली (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का नाम गोवा, दमन, दीव व दादरा नागर हवेली में जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक का कार्यालय (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1979 होगा

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।

2 गावा, दमन, दीव व दादरा नागर हवेली में जनगणना कार्य निदेशालय और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय में (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में "मद 10 संगणक" की प्रविष्टि के समक्ष—

(क) स्लैब 10 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति 75%
स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा 25%"

(ख) स्लैब 11 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"पदोन्नति—110-180 रु० (पूर्व संशोधित) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलनकर्ता।

स्थानान्तरण—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक तथा पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालयों तथा प्रशासनों में कार्यरत संगणक।

[म० 3/3/78-प्रशा०-1]

पी० पद्मनाभ, भारत के महामंत्रीकार

G.S.R. 591.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Group C and Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Goa, Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules, 1973, in the entries against "item 10 Computer"—

(a) in column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion 75 per cent ;

Transfer failing which by promotion 25 per cent ;"

(b) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion.—Assistant Compilers with three years' regular service in the grade (Rs. 110—180 pre-revised).

Transfer.—Computers in other Offices of the Directors of Census Operations and ex-officio Superintendents of Census Operations in States/Union Territories and Administrations."

[No. 3/3/78-Ad. I]

P. PADMANABHA, Registrar General, India.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली 7 अप्रैल, 1979

सा० का० नि० 592—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 में, नियम 9 के उप-नियम (1) में, '2500-125/2/2750 रु० का बतनमान' पद के स्थान पर '2500-100-3000 रु० का बतनमान' पद रखा जाएगा।

[फा० सं० एल-12011/1/79-एम०एम०पी०]

टी० आर० त्रेहन, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 7th April, 1979

G.S.R. 592.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975 namely—

- (1) These rules may be called the National Cooperative Development Corporation (Amendment) Rules, 1979
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. In the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975 in sub-rule (1) of rule 9 for the expression 'scale of Rs 2500-125/2 2750', the expression 'scale of Rs 2500 100 3000' shall be substituted

[F No L 12011/1/79-ACMP]

T. R. TRIHAN, Under Secy

नई दिल्ली, 31 मार्च 1979

सा० का० नि० 593—केंद्रीय सरकार बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 28 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति में मध्य प्रदेश राज्य में विधिक मापविद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के भाग 4 के अध्याय 4 उपबध्दों संबंधी विधिक मापविद्या निदेशक की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित है सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बेची बितरित या परिवहन की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा० सं० डब्ल्यू एम-9(36)/77]

New Delhi the 31st March 1979

G.S.R. 593.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 28 of the Standards of Weights and Measures Act 1976 (60 of 1976) the Central Government

hereby delegates, with the consent of the State Government, to the person holding for the time being the Office of the Controller of Legal Metrology in the State of Madhya Pradesh all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act, except the powers conferred by Section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form, which is sold distributed or delivered in the course of any inter State trade and commerce

[F No WM 9(36)/77]

सा० का० नि० 594—केंद्रीय सरकार बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 28 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सहमति में मेघालय राज्य में विधिक मापविद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के भाग 4 के अध्याय 4 उपबध्दों संबंधी विधिक मापविद्या निदेशक की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित है सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बेची बितरित या परिवहन की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा० सं० डब्ल्यू एम-9(36)/77]

G.S.R. 594.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 28 of the Standards of Weights and Measures Act 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby delegates with the consent of the State Government, to the person holding for the time being the Office of the Controller of Legal Metrology in the State of Meghalaya all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act except the powers conferred by Section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form, which is sold distributed or delivered in the course of any inter State trade and commerce

[F No WM-9(36)/77]

सा० का० नि० 595—केंद्रीय सरकार बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) की धारा 28 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सहमति में तमिलनाडु राज्य में विधिक मापविद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के भाग 4 के अध्याय 4 उपबध्दों संबंधी विधिक मापविद्या निदेशक की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित है सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बेची बितरित या परिवहन की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा० सं० डब्ल्यू एम-9(36)/77]

ए० सं० मेठी, सयुक्त सचिव

G.S.R. 595.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 28 of the Standards of Weights and Measures Act 1976 (60 of 1976) the Central Government hereby delegates with the consent of the State Government, to the person holding for the time being the Office of the Controller of Legal Metrology in the State of Tamil Nadu all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act except the powers conferred by Section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form which is sold distributed or delivered in the course of any inter State trade and commerce

[F No WM-9(36)/77]

A S SETHI, Jt Secy

विज्ञान और औद्योगिक विभाग

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979

सा० का० नि० 596.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सर्वेक्षण में पुस्तकालय (कनिष्ठ) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बगाते हैं, अर्थात् :—

1. मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण (कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों में उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. नियम निधि करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वहाँ, उसके लिए जो कारण है उक्त लेखबद्ध करके लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों का बाबत, आदेश द्वारा, निधि कर सकेगी।

6. व्याप्ति :—इन नियमों को कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा अचयन पद	मीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित	380-12-440-ब०- रो०-15-560-ब० रो०- 20-640 र०	लागू नहीं होता	18 से 35 वर्ष	आवश्यक : टिप्पण :—आयु सीमा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से उपाधि या सम-तुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिग्री। तथा एक द्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी।

संघीय भर्ती किये परीक्षा की,	भर्ती की पद्धति/भर्ती साधन होगी	प्रार्थन/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	यदि विभागीय प्रार्थन है	भर्ती करने में कितने
जाने वाले व्यक्तियों	अथवा, यदि	या प्रार्थन द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ	तब उसकी संरचना
के लिए विहित श्राव्य	कार्ड हूँ	स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न	जिनमें प्रार्थन/प्रतिनियुक्ति	लागू सेवा श्राव्य में
और शैक्षिक श्रेणियाँ	पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	/स्थानान्तरण किया जाएगा		परामर्श किया जाएगा
प्रार्थन की दशा में	व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति			
लागू होगी या नहीं				

8

9

10

11

12

13

लागू नहीं होगा

दा वर्ष

संघीय भर्ती द्वारा

लागू नहीं होगा

समूह 'ब' विभागीय प्रार्थन/समित प्रसंग निम्न-लिखित होंगे—

(1) विभाग का प्रधान/उपसहायक (प्रशासन) —अध्यक्ष

(2) सम्बद्ध निदेशक/उपसचिव, शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य

(3) निदेशक (चक्रानुक्रम में) —सदस्य

(4) भारतीय सर्वेक्षण में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह 'क' का ज्येष्ठतम अधिकारी जिसके तहत सक्ते पर समूह 'ख' का ज्येष्ठतम अधिकारी—सदस्य

(5) सहायक महासर्वेक्षक (प्रशासन) —सदस्य

[एफ० सं० 18-11/76-एस० एम० पी०-1]

डी० निवाड़ी, डेस्क अधिकारी

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 4th April, 1979

G.S.R. 596.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Librarian (Junior) in the Survey of India under the Department of Science and Technology, namely,

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Survey of India (Librarian Junior) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Librarian (Junior)	One	General Central Services Group C Non-Ministerial	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Not Applicable.	Between 18-35 years Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University or Institution.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of (1) Head of the Deptt./ Deputy Surveyor General (Administration)—Chairman (2) Director/Deputy Secretary concerned, Deptt. of Science & Technology—Member. (3) Director (by rotation)—Member. (4) Senior most Scheduled Caste Officer of Group 'A' failing which of Group 'B' in the Survey of India—Member. (5) Assistant Surveyor General (Administration)—Member.	Not applicable

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 1979

सा० का० नि० ५१७—सविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1967 में और आगे मणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1 (1) ये नियम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती (मणोधन) नियम 1979 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे।

2 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, क्रम संख्या 7 और 8 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् —

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
7 भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ)	1166	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित	700-40-900-३० १००-40-1100-50- 1300 रु०	चयन	(क) परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती हेतु 21 और 30 वर्ष के बीच। नोट—आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख परीक्षा वाले वर्ष की पहली जनवरी होगी। (ख) तदर्थ चयन द्वारा सीधी भर्ती 35 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)। नोट—आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत (अद्यतन और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	(क) परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती किसी माध्यम प्राप्ति विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता अथवा भारतीय खान स्कूल, धनबाद के प्रयुक्त भूविज्ञान में एमोसिएटशिप का डिप्लोमा (ख) तदर्थ चयन द्वारा सीधी भर्ती अनिवार्य (1) किसी माध्यम प्राप्ति विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता, अथवा भारतीय खान स्कूल धनबाद से प्रयुक्त भूविज्ञान में एमोसिएटशिप का डिप्लोमा। (2) आर्थिक, महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज पूर्वक्षण का 3 वर्ष का क्षेत्रगत अनुभव। (अथवा) सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सभ्य लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दे सकता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के उम्मीदवारों के मामले में विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित पदों हेतु अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है।

बाछनीय

(1) खनिज पूर्वक्षण और खनिज उपयोग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण।

(2) खनिज उद्योग के विकास और कार्य प्रणाली की जानकारी।

सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा परीक्षा/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण शर्त विभागीय पदोन्नति परिस्थितियां किनम निर्धारित आयु और अवधि यदि हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/द्वारा भर्ती होने पर वे ग्रेड जिसमें शामिल हैं ता उम्मीद गठन भर्ती करने समय सच लोक सेवा आयोग को पदोन्नति के मामले में स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा परामर्श दिया जाएगा भी लागू होगी विधियों का प्रतिफल

8

9

10

11

12

13

पदोन्नति

आयु नहीं 2 वर्ष 50 प्रतिफल पदोन्नति द्वारा जिसके सहायक भूविज्ञानिक जिनके पास श्रेष्ठ से कम भूविज्ञान में डिग्री या पदोन्नति करने के समय सच लोक सेवा आयोग द्वारा सी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा जिसके अग्रफल होने पर सच लोक सेवा आयोग की मार्फत खुले विज्ञापन में तदर्थ चयन द्वारा, और 50 प्रतिफल सच लोक सेवा आयोग द्वारा सी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिसके अग्रफल होने पर आयोग की मार्फत खुले विज्ञापन में तदर्थ चयन द्वारा।

यदि 'क' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित है —

- 1 सदस्य सच लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
- 2 खान विभाग का सहायक सचिव या उप सचिव—सदस्य
- 3 महानिदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा नामित भारतीय भू-सर्वेक्षण का उप महानिदेशक—सदस्य

सीधी भर्ती या पदोन्नति करने के समय सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य।

1

2

3

4

5

6

7

8. सहायक भूविज्ञानिक

216

सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'अ' राजपत्रित

६० ६५०-३०-७४०
३५-८१०-६००-३५-
८८०-४०-१०००-३०
१००-४०-१२००

चयन

(क) परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती हेतु 21 और 30 वर्ष के बीच।

(क) परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता

नोट —आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख परीक्षा वाले वर्ष की पहली जनवरी होगी।

(ख) तदर्थ चयन द्वारा सीधी भर्ती 35 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)।

अथवा भारतीय खान स्कूल, धनबाद के प्रयुक्त भूविज्ञान में एमोसिएटशिप का डिप्लोमा।

(ख) तदर्थ चयन द्वारा सीधी भर्ती अनिवार्य:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता, अथवा भारतीय खान स्कूल धनबाद में प्रयुक्त भूविज्ञान में एमोसिएटशिप का डिप्लोमा।

नोट —आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत (अद्यतन और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।

(अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में सच लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दे सकता है।)

8	9	10	11	12	13
भायु: नहीं श्री० यो० कालम 11 में निदिष्ट सीमा तक	2 वर्ष	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके असफल होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके असफल होने पर संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत खुले विज्ञापन में तदर्थ चयन द्वारा; और 75 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिसके असफल होने पर आयोग की मार्फत खुले विज्ञापन से तदर्थ चयन द्वारा।	पदोन्नति : वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) जिनके पास कम से कम भूविज्ञान में डिग्री हो तथा जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उक्त ग्रेड में 3 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्न-लिखित हैं :— 1. महानिदेशक—अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण—सदस्य 3. प्रशासन निदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण—सदस्य	सीधी भर्ती करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य।

[का० सं० ए-12025/6/76-खान-2]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 2nd April, 1979

G.S.R. 597.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, for serial numbers 7 and 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
7. Geologist (Junior)	1166	General Central Service Group 'A' Gazetted	700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Selection	(A) For direct recruitment through examination : Between 21 and 30 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the first January of the year in which the examination is held. (B) For direct recruitment by ad hoc selection. Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	A. Direct Recruitment through examination. Master's Degree in Geology or Applied Geology from a recognised university or equivalent. Or Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines Dhanbad. B. Direct recruitment by Ad-hoc selection. Essential : (i) Master's Degree in Geology or Applied Geology from a recognised university or equivalent or Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad.

6

7

(other than those in Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep).

(ii) 3 years' field experience in Geological Mapping and mineral prospecting of economic strategic and rare minerals.

(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them).

Desirable :

- (i) Training in different aspects of prospecting for minerals and utilisation of minerals.
- (ii) Knowledge of development and working of mineral industry.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Age : No E.Q. : To the extent indicated in Col. 11	2 yrs.	50% by promotion failing which by direct recruitment through competitive examination to be conducted by the UPSC failing which by ad-hoc selection by open advertisement through the UPSC and 50% through competitive examination to be conducted by the UPSC, failing which by ad hoc selection by open advertisement through the Commission.	Promotion : Assistant Geologists possessing at least a Degree in Geology with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' DPC consisting of : 1. Member, UPSC—Chairman. 2. Joint Secretary or Deputy Secretary concerned in the Department of Mines—Member 3. Deputy Director General, Geological Survey of India to be nominated by the DG, GSI—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and promotion.

1	2	3	4	5	6	7
8. Assistant Geologist	216	General Central Service Group 'B' Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	(A) For Direct recruitment through examination : Between 21 & 30 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the First January of the year in which the examination is held. (B) For Direct Recruitment by ad hoc selection : Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	(A) Direct Recruitment through Examination : Masters' degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent. Or Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad. (B) Direct Recruitment by ad-hoc selection : Essential : Master's Degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent or Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified).

8	9	10	11	12	13
Age : No E.Q. : to the extent indicated in Col. 11	2 years	25% by promotion failing which by direct recruitment through competitive examination to be conducted by the UPSC failing which by ad hoc selection by open advertisement through the UPSC and 75% through competitive examination to be conducted by UPSC, failing which by ad hoc selection by open advertisement through the Commission.	Promotion : Senior Technical Assistants (Geology) possessing at least a degree in Geology with 3 year's service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis.	Group 'B' DPC consisting of : 1. Director General — Chairman 2. Deputy Director General, Geological Survey of India — Member 3. Director of Administration, Geological Survey of India — Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

[F. No. A-12025/6/76-M-2]

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1979

सां. कां. सि. 598.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद), भर्ती नियम, 1967 से और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979, कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे।

2. भारतीय भू-वैज्ञानिक समन्वेषण स्कन्ध सहित (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में कम संख्या 69 और उक्त संख्या प्रविष्टियों के बाव निम्नलिखित कम संख्या और उससे संबंध प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7

70 वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी

1

सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपद्धित

₹० 1500-60-1800
100-2000

प्रवरण

45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट है)।
नोट :—आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह होगी जो भारत (अंशमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य-द्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) के उम्मीदवारों में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

अनिवार्य :

(1) भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान पत्रपत्र के सदस्य रजिस्टर में पंजीयन के लिए मान्य लेखाविधि योग्यता हो अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टमर्स संस्थान एकाउंटेंट्स लवन या भारतीय लागत और निर्माण लेखापाल संस्थान, कलकत्ता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) किसी सरकारी या औद्योगिक संगठन में वायित्वपूर्ण या व्यावसायिक हिसाब से लागत लेखा-विधि का 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

टिप्पणी—1 : अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग यदि चाहे तो, अपने विवेकानुसार अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकता है।

टिप्पणी—2 : सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनुभव संबंधी अर्हता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार उस स्थिति में छूट दे सकता है जब ध्यान के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह अभिमत हो कि इन जातियों के लिए प्रारक्षित पदों को भरने के लिए उनमें से अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।

बांछनीय :

सरकारी विभाग में वित्तीय लेखा कार्य का ज्ञान।

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	परिक्षा की अवधि यह हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होने पर वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय समिति है तो उसका गठन	पदोन्नति	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा
8	9	10	11	12	13	

पदोन्नति :

वर्षों

2 वर्ष

पदोन्नति द्वारा जिसके असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

ऐसा लागत लेखा अधिकारी जिसने उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा की हो।

वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित है :—
1. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष

पदोन्नति या सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

8	9	10	11	12	13
				2. भारतीय भू-वैक्षण के महानिदेशक या भारतीय भू-वैक्षण के वरिष्ठ उप महानिदेशक (वित्त)--- सदस्य	
				3. खान विभाग के संबंधित अपर सचिव या संयुक्त सचिव---सदस्य	

[फा० सं० ए-12018/11/71 एम-2]

जे० ए० चौहरी, उप सचिव

New Delhi, the 3rd April, 1979

G.S.R. 598.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) recruitment (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, after serial number 69 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted namely :—

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"70. Senior Cost Accounts Officer	1	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Accountancy qualification recognised for enrolment in Register of members maintained by the Council of the Institute of Chartered Accountants in India, or the Final Examination of the Institute of Cost and Works Accountants, London, or the Indian Institute of Cost and Works Accountants, Calcutta. (ii) 10 Years practical experience in Cost Accounting in Government or Industrial Organisation in a Position of responsibility or in a professional capacity. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Knowledge of financial accounts in a Government Department,

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Cost Accounts Officer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman, 2. Director General, Geological Survey of India or Senior Deputy Director General (Finance) Geological Survey of India—Member, 3. Additional Secretary or Joint Secretary concerned in the Department of Mines—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while making promotion and direct recruitment.

[F. No. A-2018/11/71-M.2]
J.A. CHOWDHURY, Dy. Secy.

नयी दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

सां०का०नि० 599.—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एन० द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग 'ग' अलिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1968 में और भागे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये नियम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग 'ग' अलिपिकवर्गीय पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग 'ग' अलिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, क्रमशः सहायक पुस्तकाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक से संबंधित पदों की क्रम सं० 51 और 52 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
51. सहायक पुस्तकाध्यक्ष	23*	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	र० 425-15-500- र० 400-15-560- 20-700	अप्रवरण	18 और 35 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।)	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता। (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था ने पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

*नोट:—पदों की संख्या में कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट:—आयु सीमा निर्धारण के लिये निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत (अंश-मान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आय और शैक्षिक योग्यताये क्या पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिक्षा की शर्तें, यदि हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होने पर वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा
--	---------------------------	---	--	---	---

8	9	10	11	12	13
नहीं।	दो वर्ष	75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति पुस्तकालय सहायक जिनमें उच्चतम ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद 5 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग (ग) विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्न-लिखित हैं :— 1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक निदेशक—अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी—सदस्य 3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वर्ग 'क' का एक अधिकारी जो बरीयतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो—सदस्य 4. किसी अन्य विभाग का वर्ग 'क' का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7
52. पुस्तकालय सहायक	* 36	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	रू० 330-10-380- रू० 12-500- रू० 15-560	लागू नहीं।	18 और 35 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।) नोट:—आयु सीमा निर्धारण के लिये निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता। (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

*नोट—पदों की संख्या में कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

New Delhi, the 9th April, 1979

G.S.R. 599.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Group 'C' Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Group 'C' Non-Ministerial Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Group 'C' Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968 for Serial No. 51 and 52 relating to the posts of Assistant Librarian and Library Assistant respectively, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-Selection	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
51. Assistant Librarian.	23*	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-FB-15-560-20-700.	Non-Selection.	Between 18 and 35 years. (Relaxable for SC/ST candidates up to 40 years).	(a) Degree of a recognised University or equivalent. (b) Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University or Institution.
	*Note: The number of posts is subject to variation according to work load.			Note :— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)		

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
8	9	10	11	12	13
No	Two years	75% by promotion and 25% by direct recruitment.	Promotion: Library Assistant with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. A Director of Geological Survey of India—Chairman. 2. Senior Administrative Officer—Member. 3. A Group 'A' Officer of Geological Survey of India preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community—Member. 4. A Group 'A' Officer from other Department—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
52. Library Assistant.	36	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-12-500-EB-15-560.	Not applicable.	Between 17 and 35 years. (Relaxable for SC/ST candidates up to 40 years). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(a) Degree of a recognised University or equivalent. (b) Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University or Institution.
*Note: The number of posts is subject to variation according to work load.						
8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years	By direct recruitment	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	

[F. No. A.12018/2/79-M.2]

J.A. CHOWDHURY, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1979

सां० का० नि० 600.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला गतिविधाबाध में युग्म 'ग' के कुछ पदों की भर्ती की विधि का नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं:—

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला (युग्म 'ग' पद) भर्ती नियम 1979 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को ही लागू हो जायेंगे।
- लागू करना:—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान तथा होंगे जो कि अनुसूची के बाधम 2 में 1 में निर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की विधि आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वहाँ दंगी जा उक्त अनुसूची के कालम 5 में 1.3 में निर्दिष्ट हैं।
- अर्हता:—कोई व्यक्ति—
(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है जिसका पि पति या पत्नी जीवित हो, अथवा
(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है।

6 छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां यह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग में संबंधित व्यक्तियों का इन नियमों के निर्मा लागू हो छूट दे सकता है।

7 व्याप्ति:—इस सवध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन प्रावधानों और अन्य ग्यारहों की व्यवस्था करता प्रोक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी भाग का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उच्च श्रेणी लिपिक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अग्राज-पन्नित अनुसन्धिवीय	330-10-380-२०००- 12-500-२०००- 15-560	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वशा में लागू होंगी	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वशा में वे प्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए सश्र लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर स्थानान्तरण अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालयों में कार्य कर रहे उच्च श्रेणी लिपिक अथवा अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस प्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो विभागीय अवर श्रेणी लिपिक को भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ अवश्य विचारा जाएगा बशर्ते कि वह इसके लिए पात्र हों और चयन हो जाने की वशा में उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी)	युप 'ग' के पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है :— (1) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —अध्यक्ष (2) उप सचिव/अवर सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति) —सदस्य (3) उप सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) अथवा मंत्रालय द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी —सदस्य (4) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा मेसज संहिता प्रयोगशाला, —सदस्य सचिव	लागू नहीं	
1	2	3	4	5	6	7
2. अवर श्रेणी लिपिक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अग्राज-पन्नित अनुसन्धिवीय	260-6-290-२०००- 8-316-8-360- २०००-8-390- 10-400	लागू नहीं	25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट)*	अनिवार्य : (1) मैट्रिक पास अथवा उसके समकक्ष। (2) अंग्रेजी में टाइप की गति कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट। वास्तवीय : हिन्दी टाइप का ज्ञान।
					*नोट ---आयु-सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख, जो कालम 6 में दी गई है, प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए (अवमान	

1	2	3	4	5	6	7
					एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों को छोड़कर) अजिबन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख है। जिन पदों पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय द्वारा की जाती है, वहां प्रत्येक मामले में आयु सीमा की निर्णायक तारीख वही होगी, जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजवाने की अन्तिम तारीख रखी गई होगी।	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	2 वर्षों के	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन इस प्रकार होगा: (1) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —अध्यक्ष (2) उप सचिव/अवर सचिव ^१ (भारतीय चिकित्सा पद्धति) —सदस्य (3) उप सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) अथवा मंत्रालय द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी —सदस्य (4) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला —सदस्य-सचिव	लागू नहीं	

[सं० एफ० 18015/8/78-प्रार्थ०वि०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

New Delhi, the 20th March, 1979

G.S.R. 600.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column I of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Upper Division Clerk	One	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made	If departmental promotion Committee exists what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted when making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	Transfer on deputation/promotion failing which by direct recruitment	Transfer on deputation./Promotion Persons already working as Upper Division Clerk or Lower Division Clerk with 8 years service in the grade in offices under the Central Government. The departmental Lower Division Clerk shall also be considered subject to his being eligible, alongwith the candidates for appointment on deputation and in the event of his selection, the post shall be deemed to have been filled up by promotion (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years).	Departmental Promotion Committee for group 'C' post consisting of : (i) Head of Indian System of Medicine Wing in the Ministry of Health and Family Welfare—Chairman (ii) Deputy Secretary/Under Secretary (Indian System of Medicine).—Member (iii) Deputy Adviser (Indian System of Medicine) or a technical officer nominated by the Ministry. —Member (iv) Head of Pharmacopoeial Laboratory of Indian Medicine —Member-Secretary	Not applicable	
1	2	3	4	5	6	7
2. Lower Division Clerk	One	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-316-8-360-EB-8-390-10-400	Not applicable	25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants)*	Essential : (1) Matriculation or its equivalent (2) English typing speed of minimum 30 words per minute. Desirable : Knowledge of Hindi Typing.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	Direct Recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee Consists of : (1) Head of Indian System of Medicine wing in the Ministry of Health and Family Welfare—Chairman.	Not applicable	

8	9	10	11	12	13
				(2) Deputy Secretary/ Under Secretary (Indian System of Medicine)—Member	
				(3) Deputy Adviser (In- dian System of Me- dicine) or Technical Officer nominated by the Ministry —Member	
				(4) Head of Pharmacopo- eal Laboratory of Indian Medicine —Member-Secretary [No. X. 18015/8/78-A.E.]	

*NOTE The crucial date for determining the age limit mentioned in col. 6 will in each case be the closing date for receipt of applications for candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit will in each case, be the last date upto which the Employment EXchanges are asked to submit the names.

सांकांनि० 601.—भारत के मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा भारतीय चिकित्सा सेवा में महिला प्रयोगशाला गाजियाबाद में ग्रुप 'ब' के कुछ पदों की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम भारतीय चिकित्सा सेवा में महिला प्रयोगशाला (ग्रुप 'ब' पद) भर्ती नियमावली 1979 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जायेंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—उपरोक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जोकि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि आयु सीमा, अहताएं आदि:—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु सीमा, अहताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

4. अर्हता:—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्थाय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहाँ वह निम्नलिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग में संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति:—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	सीधे भर्ती किये जात जाने व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जात जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7
जीकीदार	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ब'	196-3-220-ब०रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी कर्मचारी के लिए 35 वर्ष तक की छूट है)	प्राथमिक विद्यालय पास

पाद टिप्पणी:—

आयु सीमा जैसा कि कानून 6 में दिया गया है कि नियम की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए (अंशमान व निकोबार प्रयोगशाला तथा पञ्जाब की प्रयोगशाला) आदेश पत्रों की तिथि को लागू होगा।

जिन सेवा पर नियुक्ति प्रयोगशाला का काम है वेदा पत्रों के माध्यम से आयोगों के निर्णय की निर्णायक तारीख वही होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भिजवाने का कहा गया है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु श्रौर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति सीमित हो तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए मध्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	------------------------------	--	--	---	---

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	ग्रुप 'ब' के पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है :— (1) अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति विंग स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय —अध्यक्ष (2) उप-सचिव/अवर सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति) —सदस्य (3) उप सहायक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) अथवा मंत्रालय द्वारा नामित कोई तकनीकी अधिकारी —सदस्य (4) अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला —सदस्य-सचिव	लागू नहीं होता

[संख्या एक्स-18015/8/78-ए०ई०]

G.S.R. 601.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'D' post in the Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No Person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post .

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits	
1	2	3	4	5	6	7	
Chowkidar	One	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-FB-232	Not applicable	25 years. (Relaxable for Government Servants up to 35 years)*	Primary School Standard Pass.	
Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If departmental promotion Committee exists what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted when making recruitment
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee for Group 'D' post consisting of :	Not applicable		
				(i) Head of ISM wing in the Min. of Health & F.W.—Chairman.			
				(ii) Dy. Secretary/Under Secretary (ISM)			
				—Member			
				(iii) Dy. Adviser (ISM)			
				—or a technical officer nominated by the Ministry			
				—Member			
				(iv) Head of Pharmacopoeial Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad.			
				—Member-Secretary.			

[No. X-18015/8/78-A.E.]

*The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 will in each case be the closing date for receipt of applications for candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit will in each case, be the last date upto which, the Employment Exchanges are asked to submit the names.

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979

सांख्यिकी 602—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में तदनुसार और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा 23 की उपधारा (1) में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उगसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसकी उग राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है 15 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आपत्तियाँ या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम 1979 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 42 में, उपनियम (न) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(प) प्रति उत्प्रेरण एजेंट के रूप में ऐन्थीनियम मिनिफेट वाले टेबल तमर के प्रत्येक आधान/विशेष पर निम्नलिखित लेबल होगा:—

लेबल नमक

(इसमें इन्टीकेकिंग एजेंट के रूप में ऐलुमीनियम

मिलिकेट मिला है)

3. उक्त नियमों के नियम 19 में, "नियम 10 के अन्तर्गत निम्न-लिखित उपनियम जैन स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(11) प्रति उत्प्रेरण एजेंट के रूप में ऐलुमीनियम मिलिकेट वाला टेबल नमक, केवल पूर्व पैक आधानों में बेचा जाएगा/आधान/पैकेज पर नियम 42(ब) के अनुसार लेबल लगाया जाएगा।"

4. उक्त नियमों के परिणाम 'ख' में, मद सं० क-15 के स्थानों पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्—

"ग. 15 साधारण खाद्य नमक में, सफेद या पीलापन लिए हुए, गुलाबी या हल्के भूरे रंग का ऐसा क्रिस्टलीय ठोस नमक अभिश्रेण है जिसमें द्रव्य रूप में मिट्टी, ग्रिट और अन्य बाह्य अपमिश्रण तथा अशुद्धियां नहीं हैं। इसमें आर्द्रता यणुक नमूने के भार के 6 प्रतिशत

में अधिक नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड (एन०ए०सी० एन० के रूप में) और सोडियम क्लोराइड में भिन्न जल में घुलनशील द्रव्य का शुद्ध आधार पर भार, सारणी के तस्थानी स्तम्भ (1) में उल्लिखित अशुद्धि के मामले सारणी के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट रूप में होगा। जल के घुलनशील द्रव्य, शुद्ध आधार पर 1.0 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा।

सारणी

अशुद्धि	(शुद्ध आधार पर) एन०ए०सी०एन० के रूप में सोडियम क्लोराइड द्रव्य की न्यूनतम प्रतिशतता	(शुद्ध आधार पर) मिश्र जल में घुलनशील द्रव्य की अधिकतम प्रतिशतता
31-1-1979 तक	93.5	5.5
1-12-79 से 31-12-80 तक	94.0	5.0
1-1-81 से आगे	96.0	3.0

परन्तु टेबल नमक में प्रति उत्प्रेरण एजेंट के रूप में ऐलुमीनियम मिलिकेट 2.0 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा परन्तु यह जब कि ऐसे मामलों में जल में घुलनशील कुल द्रव्य 2.2 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा और शुद्ध आधार पर, सोडियम क्लोराइड द्रव्य, भार में, 97.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

[सं० पी० 15018/3/76-पी०ए०ए० (ए० ए० ए० ए०) पी०ए०ए०]

विजय भूषण, उप सचिव

New Delhi, the 4th April, 1979

G.S.R. 602. The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government purposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 23 for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 15 days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1979.

2. Under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as said rules), in rule 42, after sub-rule (T), the following sub-rule shall be inserted, namely;

"(U) Every container/package of table salt containing aluminium silicate as anticaking agent shall bear the following label :

TABLE SALT

(Contains aluminium silicate as anticaking agent)

3. In rule 49 of the said rule, after sub-rule 10, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(11) Table salt containing aluminium silicate as an anticaking agent shall be sold only in pre-packaged containers. The container/package shall bear the label declaration as per rule 42(4)."

4. In Appendix B of the said rules, for item A.15, the following item shall be substituted namely :—

"A.15 Edible common salt means a crystalline solid white or pale pink or light grey in colour free from visible contamination with clay, grit and other extraneous adulterant and impurities. It shall not contain moisture in excess of 6 per cent. of the weight of the undried sample. The sodium chloride content (as Na Cl) and the matter soluble in water than sodium chloride on dry weight basis shall be as specified in column (2) and (3) of the Table against the period mentioned in the corresponding column (1) of the Table. The matter insoluble in water, shall not exceed 1.0 per cent by weight on dry weight basis.

TABLE

Period	Minimum percentage of sodium chloride content as Na Cl (on dry basis).	Maximum percentage of matter soluble in water other than sodium chloride (in dry basis).
up to 31-1-1979	93.5	5.5
from 1-2-79 to 31-12-80	94.0	5.0
from 1-1-81 onwards	96.0	3.0

Provided that table salt may contain aluminium silicate as an anticaking agent to a maximum extent of 2.0 per cent. provided that the total matter insoluble in water in such cases shall not exceed 2.2 per cent and the Sodium Chloride content on dry weight basis shall not be less than 97.0 per cent by weight."

[No. P. 15018/3/76-PH(F&N)(PFA)]

VIJAY BHUSHAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1979

सां०कां०नि०603.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हैसरघाटा में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (समूह 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, हैसरघाटा (समूह 'ख') पद) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्ति होगी।

2. पदनाम, पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—पदनाम और उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सीधे भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूब हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ के ग्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आवेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	(2)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-द०- रो०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्वमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन से मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है)। बांछनीय : कुक्कुट पोषण में जीव रसायनिक और जैविक संबंधी कार्य में अनुभव।

सीधे अर्जी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक प्रहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	अर्जों की पद्धति/अर्जी सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा अर्जों की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति ने तो उसकी संरचना	अर्जी करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा
---	-------------------------------	--	---	---	--

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे अर्जी द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से कूट) विनियम, 1958 के अधीन तथा अपेक्षित।

[सं० 30-16/75-एल०डी०-1]

बी० बी० कपूर, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 31d April, 1979

G.S.R. 603.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Group 'B') in the Central Training Institute for Poultry Production and Management Hesserghatta, under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely :

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Central Training Institute for Poultry Production and Management, Hesserghatta (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Designation, Number, Classification and Scale of pay.—The designation and number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 1 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule, provided that

the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualification—No person

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a Spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Technical Assistant	2 (Two)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs.550-25-750-EB-30-900	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Govt. servants). Note : The official date for the age relaxation shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: Master's degree in Veterinary Science or Bio Chemistry of a recognised University or equivalent. Relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Desirable: Experience in Biochemical and Biological work is Poultry Nutrition.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958.

[No. 30-16/75-LD-II]

B. B. KAPUR, Dey. Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

सांख्यिकी सं० 604.—राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पावप संरक्षण संगरोध तथा संवयन निदेशालय में केयर टेकर (कीटनाशी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. मक्षिप नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पावप संरक्षण संगरोध तथा संवयन निदेशालय (कीटनाशी) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्लॉम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्लॉम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरहताएं—वह व्यक्ति—

(क) जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिन्होंने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आशय मौजूब है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार का राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, उसके लिए जो कारण उन्हें लेखबद्ध करके तथा मध्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आवेदन द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति—इन नियमों का कोई भी भाग आशयों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सवर्ग में समय-समय पर निकाला गए आशयों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	वयम अथवा अक्षयम पद	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
केयर टेकर (कीटनाशी)	एक	साधारण केन्द्रीय में समूह "ग" अराजपक्ष	425-15-500-६०००- 15-560-20-700- ६०००-25-800 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित प्रायु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नति की वृत्ति में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिफल	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सख्खा	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	----------------------------	--	---	--	---

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण महायक (के० स० से०) या उच्च श्रेणी लिपिक (के० स० नि० से०) जिन्होंने उसमें 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है, कर्मचारियों को भ्रष्टाचरन्क्षण/अधिवेशनों के लिए द्वाब-श्यक व्यवस्था करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० फा० 13-19/78-पी०पी०एस०]

एस० विप्रबनाथन, ग्रवर सचिव

New Delhi, the 6th April, 1979

G.S.R. 604.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker (Insecticides) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Caretaker (Insecticides) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Caretaker (Insecticide.)	One	General Central Service Group- "C" Non-Gazetted.	Rs. 425-15-500-EB- 15-560-20-700-EB- 25-800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation from: Assistant (C. S. S.) or U.D.C (C.S.C.S.) with 5 years, regular service in grade. The official should possess atleast one years' experience of maintenance of building/ making necessary arrangement for holding meetings etc. (Period of deputation shall ordinarily not exceeding three years)	Not-applicable.	Not applicable.

[No.F. 13-19/78-PPS]
S. VISWANATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

सां.कां.नि० 605.—राष्ट्रपति, संविधान ने अनुच्छेद 309 के परलुके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तार निदेशालय (समूह "ग" और समूह "ब" पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्तार निदेशालय (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपत्रों में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार निदेशालय (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1964 में :—

(i) नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में कूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

(ii) अनुसूची में,

- (क) जिन लिपिक, खाता (लेजर) लिपिक (स्टॉर), ब्रिजली मिस्त्री, तकनीकी सहायक (सांख्यिकी), तकनीकी सहायक (सहकारिता), तकनीकी सहायक (पशुपालन) और तकनीकी सहायक (युवक श्रियाकलाप) के पदों से सम्बन्धित मदों और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) अन्त में निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
ईन्स्टेड सहायक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (लिपिक-वर्गीय अराजपत्रित)	330-10-380-२०२० 12-500-२०२०- 15-560 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हों	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. प्रशासन निदेशक —सदस्य 2. कृषि विभाग में अवर सचिव (फसल) —सदस्य 3. अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि—सदस्य 4. उपनिदेशक (लेखा) —सदस्य 5. प्रशासन उप निदेशक —सदस्य सचिव	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7
खाता (लेजर) लिपिक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" लिपिक- वर्गीय भ्रराजपत्रित	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०- 15-560 रु०	अवयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
बिजली मिस्त्री	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" भ्रराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०- 15-560 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन- जातियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी - आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक (1) उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य (2) राज्य सरकार सन राज्य क्षेत्र द्वारा जारी की गई विद्युत पर्य- वेक्षण अनुज्ञप्ति हो और बिजली की मारो के आरेख पढ़ने योग्य हो। वाठनीय (1) विद्युत मोटरों ए०सी० डी०सी० जनरेटरों की मरम्मत और अनु- रक्षण (2) किसी क्षति प्राप्त आफसेट प्रैम में प्रयोग किये जा रहे विद्युत उपस्कर की मरम्मत और अनु- रक्षण का अनुभव
क्षेत्र पर्यवेक्षक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" भ्रराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	260-6-326-द०रो०- 8-350 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है। टिप्पण 2 - केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर निकाले गये अभ्युद्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन- जातियों अथवा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए बिहिन आयु- सीमा शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक (1) मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान। (3) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर पशु धन प्रदर्शनों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। (4) श्रम कार्य सभालने और उसके पर्यवेक्षण का अनुभव (अनुभव संबंधी धर्तृता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में सश्रम प्राधिकार के विवेक पर शिथिल की जा सकती है) वाठनीय अन्य प्रावर्णिक भाषाओं का ज्ञान।
8	9	10	11	12		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हो	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे --- 1 प्रशासन निदेशक ---प्रध्यक्ष 2 कृषि विभाग में अवर सचिव (कमल)---सदस्य 3 उपनिवेशक (लेखा)---सदस्य 4 प्रशासन उप निदेशक ---सचिव सदस्य		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	रोजगार कार्यालय की मार्फत सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	रोजगार कार्यालय की मार्फत सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5	6	7
प्रधान पैकर	दो	समूह "घ" अल्पिक- वर्गीय अराजपत्रित	210-4 250-६० रो०- 5-270 रु०		30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पणी —आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय में नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	आवश्यक 1 आठवीं कक्षा पास। 2 हिन्दी और अंग्रेजी का प्राग्भिक ज्ञान। 3 पैकर क रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
भांडागारिक	6	समूह "घ" अल्पिक- वर्गीय अराजपत्रित	210-4 250-६० रो०- 5-270 रु०		30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेज- ने के लिए कहा गया हो।	आवश्यक 1 आठवीं कक्षा पास। 2 अंग्रेजी और हिन्दी का प्रा- रभिक ज्ञान। 3 प्रेस के प्रकाशन स्टोर/जिल्ब- माजी अनुभाग में कार्य करने का कुछ अनुभव।
8	9	10	11	12		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके त हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसा पैकर जिसने उस श्रेणी में नियमित रूप से 3 वर्ष सेवा की हो।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे --- 1 उप निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2 अनुभाग अधिकारी (फसल प्रशासन-4 अनुभाग) कृषि विभाग —सदस्य 3 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि केवल अल्पिकवर्गीय तकनीकी पदों के मामले में—सदस्य 4 डी० ई० टी०/डी० एफ० आई० यू० का नाम निर्देशित —सदस्य		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके त हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे दफ्तरियों में से प्रोन्नति जिन्होंने उच्च श्रेणी में सेवा की हो और यह शर्त भी होगी कि उन्होंने अपना व्यव- साय परीक्षण पास कर लिया हो।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे --- 1 उपनिदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2 अनुभाग अधिकारी (फसल प्रशासन-4 अनुभाग) कृषि विभाग —सदस्य 3 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि—सदस्य 4 अल्पिकवर्गीय तकनी- की पद के लिए डी० ई० टी०/डी० एफ० आई० यू० का नाम निर्देशित —सदस्य		

1	2	3	4	5	6	7
फैकिंग मशीन आप- रेटर	1 समूह "घ" असिपिक- वर्गीय	210-4-250-दो- रो० -5-270 द०	अवयव	30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने की निर्धारित तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	आवश्यक : 1. आठवीं कक्षा पास। 2. अंग्रेजी और हिन्दी का प्रा- रम्भिक ज्ञान। 3. फैकिंग मशीन पर कार्य करने की दक्षता।	
8	9	10	11	12		
लाग नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे व्यक्तियों में से प्रोन्नति जिन्होंने ने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्न- ति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. उप निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी (फसल प्रशासन-4 अनुभाग) कृषि विभाग —सदस्य 3. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि—सदस्य 4. केवल असिपिकवर्गीय तकनीकी पदों के लिए। डी० ई० टी०/डी० एफ० आई० यू० का प्रति- निधि —सदस्य		

[सं० फा० 29-11/77-सी० ए० 4]

डी० पी० शर्मा, अवसर सचिव

New Delhi, the 7th April, 1979

G.S.R. 605.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Extension (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Extension (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette
2. In the Directorate of Extension (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1964,—
(i) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—
“(a) *Saving* :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard”.
(ii) in the schedule:
(a) the items relating to the posts of Bin Clerk, Ledger Clerks (Stores), Electrician, Technical Assistant (Statistics), Technical Assistant (Cooperation), Technical Assistant (Animal Husbandry) and Technical Assistant (Youth Activities) and the entries relating thereto shall be omitted.

(b) the following items and entries shall be inserted at the end, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
Indent Assistant	One	General Central Service Groups C, Ministerial, Non-gazetted,	Rs. 330-10-380-E.B. 12-500-EB-15-560	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
Legal Clerk	One	General Central Service Group 'C' Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-E-B-15-560	Non selection	Not applicable	No applicable

8	9	10	11	12
Not applicable	Two years	By promotion	Lower Division Clerks with a minimum of 5 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:— 1. Director of Administration—Chairman. 2. Under Secretary (Crops) in the Department of Agriculture—Member. 3. Representative of the Scheduled Castes—Member. 4. Deputy Director (Accounts)—Member. 5. Deputy Director of Administration.—Member Secretary.
Not applicable	Two years	By promotion	Lower Division Clerks with a minimum of 5 years, regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of :— 1. Director of Administration—Chairman. 2. Under Secretary (Crops) in the Department of Agriculture—Member. 3. Deputy Director (Accounts)—Member. 4. Representative of Scheduled castes —Member. 5. Deputy Director of Administration —Member-Secretary.

1	2	3	4	5	6	7
Electrician	One	General Central Service Group 'C' Non-Gezotted, Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not-applicable.	30 Years (Relaxable upto 5 years in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : (i) Higher Secondary or equivalent. (ii) Should be in possession of an electrical supervision licence issued by a State Government/Union Territory and be able to read electrical wiring diagrams. Desirable : (i) Repairs and maintenance of electric motors/Generators A.C./D.C. (ii) Experience of repairs and maintenance of electrical equipment used in an offset press of repute.

8	9	10	11	12
Not applicable	Two years	Direct recruitment through Employment Exchange	Not applicable.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Camp Supervisor.	One	General Central Service Group, "C" Non-Gazetted Non-ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Not applicable.	35 years : Note 1 : the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. Note 2 : The upper age limit prescribed may be relaxed in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the instructions issued by the Central Govt. from time to time.	Essential : (i) Should have passed Matric or equivalent Examination (ii) Working Knowledge in Hindi (iii) Practical experience of working in the livestock shows in the State or Central in level. (iv) Experience in handling and supervision of labour work. (Qualification regarding experience relaxable at the discretion of the competent authority in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. Desirable : Knowledge of other regional languages.
Head packer	Two	Group 'D' Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 210-4-250-EB-5-270.	Non-Selection.	30 years (relaxable for Government servant upto 35 years) Note : the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : 1. Eight Class Pass . 2. Elementary knowledge of English and Hindi. 3. Minimum experience of 3 years as a packer.

8	9	10	11	12
Not applicable	Two years	Direct recruitment through Employment Exchange.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	Two years	By promotion falling which by direct recruitment.	Packer with 3 years regular service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Deputy Director (Administration)—Chairman 2. Section Officer, C.A. IV Section, Department of Agriculture—Member 3. A representative of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes. —Member 4. Nominee of DET/DFIU in the case of Non-Ministerial technical posts only—Member

1	2	3	4	5	6	7
Ware-housingman	Six	Group 'D' Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 210-4-250-EB-5-270.	Non-Selection.	30 years (Relaxable for Govt. servants upto 35 years) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : 1. Eighth Class pass. 2. Should have elementary knowledge of English and Hindi. 3. Should have some experience in working in a publication store/bindery section of a press.
Franking Machine Operator	One	Group 'D' Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 210-4-250-EB-5-270.	Non-Selection.	30 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : 1. Eighth Class Pass. 2. Elementary Knowledge of English and Hindi. 3. Should have proficiency of working on franking machine.
8	9	10	11	12		
Not applicable	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion, from Daftries with 3 years' service in the grade and subject to their passing the trade test.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Deputy Director (Administration) —Chairman. 2. Section Officer, C.A. IV Section, Department of Agriculture —Member. 3. A representative of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes—Member. 4. Nominee of DET/DFIU in the case of Non-Ministerial technical posts only —Member.		
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from Daftries with 3 years service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Director (Administration) —Chairman. 2. Section Officer, C.A. IV Section Department of Agriculture—Member. 3. A representative of Scheduled Castes/the Scheduled Tribes —Member. 4. Nominee of DET/DFIU in the case of (Non-Ministerial technical post only) —Member.		

[No. F. 29-11/77-C.A.-IV]

D. P. SHARMA, Under Secy.

(सिवाही विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

सा० का० वि० 606—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय पार्षी और बिजली आयोग (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1974 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में अध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल आयोग (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य बातें :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आय सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंताएं :—बहु व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निहाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किये जाने के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अध्यक्ष	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	3500/६०	(नियत) लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सम्भित है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)/स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)/स्थानान्तरण चयन, संयुक्त क्षेत्र से किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (क) केन्द्रीय जल आयोग में ऐसे सदस्यों और मुख्य इंजीनियरों (स्तर I और स्तर II) (जो प्रतिनियुक्त नहीं हैं) तथा निदेशक, केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसंधान केन्द्र, पुणे, कीर्तिनियुक्ति पर विभागीय अध्यक्षियों के रूप में विचार किया जाएगा। यदि विभागीय	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा।	

8	9	10	11	12	13
			अभ्यर्थियों में से किसी का चयन किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया है।		
			(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे मुख्य इंजीनियर जिन्हें सिंचाई परियोजना की अभिकल्पना, सन्निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में अनुभव है, और सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, अनुसंधान और विकास संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और क्याति प्राप्त प्राइवेट संस्थानों में समुचित हैमियन के ऐसे अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य, जिन्हें सिंचाई और पानी उपयोग के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त-गवेषण में अनुभव है और/या जिन्हें सिंचाई परियोजना अभिकल्पना, सन्निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में अनुभव है।		
			(प्रतिनियुक्ति/सिंचाई की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[सं० 5/79-एफ० 39/25/77-प्रशा० 1/स्था० I]

द० रणनाथन, अवर सचिव

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 6th April, 1979

G.S.R. 606.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission (Chairman and Vice-Chairman) Recruitment Rules, 1974, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chairman in the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Central Water Commission (Chairman) Recruitment Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of Recruitment, Age-Limit and Other matters.—The method of recruitment to the said post, age-limit and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Chairman	One	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 3500 (fixed)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, If any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Not applicable	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer.	Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer. The selection will be made from a composite field consisting of the following: (a) Members and Chief Engineers (Level I and Level II) in the Central Water Commission (who are not deputationists) and Director, Central Water and Power Research Station, Pune will be considered for appointment as departmental candidates. If any one of the departmental candidates is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion. (b) Chief Engineers of State Governments/ Union territories having experience in the design, construction, operation and maintenance of Irrigation Projects; and Officers of appropriate Status in Govt./Semi Govt. Organisations, research and development organisations, public sector undertakings, private concerns of standing and Professors of Universities with experience in applied research in the field of	Not applicable	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission.	

irrigation and water utilisation and/or with experience in the design, construction, operation and maintenance of irrigation projects.

(Period of deputation/contract shall not exceed 5 years.)

[No. 5/79-F. 39/25/77-Admn. I/Estt. I]
D. RANGANATHAN, Under Secy.

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

सा० का० नि० 607.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय में प्रशासन अधिकारी (केन्द्रीय कृषि विपणन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रशासन अधिकारी (केन्द्रीय कृषि विपणन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाध्य अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा मंच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आवेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय में प्रशासन अधिकारी (केन्द्रीय कृषि विपणन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान) के पद के लिए भर्ती नियम।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अभ्ययन पद	मीछे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासन अधिकारी (केन्द्रीय कृषि विपणन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'अ' (राजपत्रित) (लिपिकवर्गीय)	650-30-740-35- 810-50-1000-35- 880-40-1000-50- 1000-40-1200-50	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:—आयु सीमा	आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की उपाधि या सम-सुल्य। (2) किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या व्यापारिक

1	2	3	4	5	6	7
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्धमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) भ्रातृद्वय प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	वाणिज्यिक संगठन में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार निर्धारित की जा सकती हैं। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए भारभित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय : सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा अधीनस्थ (लिपिक वर्गीय) जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सर्वश्रेष्ठ पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550-900 रु०/425-800 रु० के वेतन मान वाले या समतुल्य पदों पर कम से कम क्रमशः 3 वर्ष या 8 वर्ष सेवा करली है और जिन्हें प्रशासन, स्थापन तथा लेखा संबंधी विषयों का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. कृषि विपणन सलाहकार—प्रध्यक्ष 2. उप सचिव (सी० एम०) ग्राम विकास विभाग—सदस्य 3. कृषि विपणन संयुक्त सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नागपुर—सदस्य 4. प्रशासन निदेशक, विपणन और निरीक्षण निदेशालय—सदस्य-सचिव	सीधे भर्ती करते समय और किसी राज्य सरकार के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 26th March, 1979

G.S.R. 607.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer (Central Agricultural Marketing Research and Training Institute), Directorate of Marketing and Inspection under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development), namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection, Administrative Officer (Central Agricultural Marketing Research and Training Institute) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or the post.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Administrative Officer (Central Agricultural Marketing Research and Training Institute) in the Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture and Irrigation Department of Rural Development)

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer (Central Agricultural Marketing Research and Training Institute).	1	General Central Service Group 'B' (Gazetted Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity in a Government office or a public body or a commercial organisation of repute. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Knowledge of Government Rules and Regulations.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits are applicable for promotees	Period of probation if any	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Superintendent (Ministerial) with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on Deputation : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts or with at least 3 or 8 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900/Rs. 425-800 or equivalent respectively and having experience in administration, establishment and accounts matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Agricultural Marketing Adviser—Chairman 2. Deputy Secretary (CM) Department of Rural Development—Member. 3. Joint Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur—Member. 4. Director of Administration, Directorate of Marketing and Inspection—Member-Secretary	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing a State Government Officer on deputation.

[No. F. 1-15/77-AM]

PARKASH CHANDER Under Secy.

(हृषि विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 608—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
2. अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1969 में:—
 - (i) शब्द और अंक, "वर्ग 3" "वर्ग 4" और "वर्ग 3 और वर्ग 4" जहाँ कहीं भी आये हैं, उनके स्थान पर क्रमशः "समूह ग", "समूह घ" और "समूह ग और घ" रखा जाएगा।
 - (ii) अनुसूची में क्रम संख्या 3 पर पुस्तकालय (श्रेणी 3) के पद से संबंधित स्तम्भ में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रोन्नति:—उपेष्ट पुस्तकालय सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर ली है।

स्थानान्तरण:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा श्रेणी I और II के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा कर ली है और जिनके पास अनुसूची के स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं।

[सं. 13013/4/78-अर्थ नीति]

वरिष्ठ सचिव, प्रवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 3rd April, 1979

G.S.R. 608.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Economics and Statistics (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Economics and Statistics (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969,

(i) for the words and figures "Class III", "Class IV" and "Class III and Class IV", wherever they occur the words and letters "Group C", "Group D" and "Group C and D" shall respectively be substituted;

(ii) in the Schedule, against number 3 relating to the post of Librarian (Grade III), in column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion :

from Senior Library Attendant with five years service in the grade;

Transfer :

Officers of the C.S.C.S. Grade I and II having at least five years service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 7 of the Schedule".

[No. 13013/4/78-Econ. Py.]

DARBARI LAL, Under Secy.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

सांख्यिकी 609.—संविधान की धारा 309 के उपबन्धों द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति एवं द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षा और वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति की पद्धति को विनियमित करने हुए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1. लघु शीघ्र और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों को शिक्षा विभाग, शिक्षा व वैज्ञानिक सलाहकार, भर्ती नियम, 1979 कहा जाये।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से अनुसूची अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं अन्य विषय उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

यद्यपि कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छील दी जा सकती है।

4. कोई भी ऐसा व्यक्ति:—(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह या अनुबन्ध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी अवस्था पति जीवित हो, अवस्था (ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह या अनुबन्ध अथवा विवाह करता है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

यद्यपि कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति, और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अर्थात् ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति का इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और उचित है तो निम्नलिखित कालम में कारणों को दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से किसी भी श्रेणी अवस्था वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

6. प्रतिबन्ध:—इस संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

विदेशों में भारतीय मिशन में शिक्षा और वैज्ञानिक सलाहकार के पद के लिये भर्ती नियम

मिसिर सं० एफ० 39/2/78-स्था I शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या पद प्रवर्णन है अथवा अप्रवर्णन	सीधी भर्तियों के लिये आयु सीमा	सीधी भर्तियों के लिये अपेक्षित, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
शिक्षा व वैज्ञानिक सलाहकार	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित अतिरिक्तवर्गीय	2500-125/2-2750 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ सीधी भर्तियों के लिये लागू होंगी।	परिबीक्षा भी अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा सरा जाने वाली रिक्तियों की प्रतिभारता	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में उन श्रेणियों का उल्लेख जिससे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाता है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (अल्पकालिक संविदा सहित) विषयविद्यालय, उच्च शिक्षा की संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं के शिक्षाविदों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारी, जो शैक्षणिक प्रवृत्तियों तथा संस्कृति उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से सुपरिचित हैं। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।	

[एफ० सं० 39-2/78-ई०-1]

एम० लक्ष्मीनारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE**(Department of Education)**

New Delhi, the 20th February, 1979

G.S.R. 609.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby, makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Educational and Scientific Adviser in the Department of Education, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Education, Educational & Scientific Adviser Recruitment Rules 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule :

Provided that the maximum age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Recruitment rules for the post of Educational and Scientific adviser in Indian Missions abroad

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

In Ministry of Education & S. W. (Deptt. of Education)

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Educational and Scientific Adviser	2	General Central Service Group A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2500-125-2-2750.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment for by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation (including short-term contract)	Transfer on deputation (including short-term contract). Educationalists in the Universities, Institutions of higher learning, Research Institutions and officers in Central and State Government Departments who are well conversant with the academic trends, international relations in the fields of culture higher education including scientific and technical education. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission will be necessary on each occasion.

[F. No. 39-2/78-E.I.]

M. LAKSHMINARAYANA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

गुडि-पत्र

सांकांति० 610.—भारत के दिनांक 12 अगस्त, 1978 के राजपत्र भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड (i) से पृष्ठ 1795 से 1799 पर प्रकाशित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की दिनांक 11 जुलाई, 1978 की अधिसूचना सं० सांकांति० 1010 में—

अनुसूची में—

- (1) पृष्ठ 1796 पर, स्तम्भ 6 में '40' के स्थान पर '40 वर्ष से अधिक न हो' पढ़ा जाए,
- (2) पृष्ठ 1798 पर, स्तम्भ 6 में '35 वर्ष के स्थान पर' '35 वर्ष से अधिक न हो' पढ़ा जाए।
- (3) पृष्ठ 1797 पर, स्तम्भ 11 में, 21वीं लाइन में "प्रतिनियुक्ति सविवा की अवधि" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति सविवा की अवधि" पढ़ा जाए।

[फा० सं० पी०ई०टी०-66/76]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th March, 1979

CORRIGENDUM

G.S.R. 610.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 1010 dated the 14th July, 1978, published in the Gazette of India, Part II—Section 3, Sub-section (i), dated the 12th August, 1978, at pages 1799 to 1802,—in the schedule,—

- (i) at page 1800, in column 6, for "40 years" read "Not exceeding 40 years";
- (ii) at page 1801, in column 6, for "35 years" read "Not exceeding 35 years";
- (iii) at page 1802, in column 11, in line 25 for "Period of deputation contract" read "Period of deputation/contract"

[F. No. PET. 66/76]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

आंकांति० 611.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलीर पल्लन (सहायक समुद्री फोरमैन) भर्ती नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नव मंगलीर पल्लन (सहायक समुद्री फोरमैन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नव मंगलीर पल्लन (सहायक समुद्री फोरमैन) भर्ती नियम, 1977 में,—

(क) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, प्रायु-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रयोगों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

(ख) अनुसूची में, स्तंभ 7 के नीचे, मद(1) में, अंत में आए हुए "या" शब्द का लोप किया जाएगा।

[सं० पी० ई० एल०-83/77]

राम तिलक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi the 6th April, 1979

G.S.R. 611.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Port of New Mangalore (Assistant Marine Foreman) Recruitment Rules, 1977 namely :—

1. (1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Assistant Marine Foreman) Recruitment (amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Port of New Mangalore. (Assistant Marine Foreman) Recruitment Rules, 1977—(a) for rule 6, the following rule shall be substituted namely :—

"6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard ; (b) in the Schedule under column 7, in item (i), the word "or" occurring at the end shall be omitted.

[No. PEL-83/77]

R. T. PANDEY, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

सांकांति० 612.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा मुख्यालय कार्यालय, नागर विमानन विभाग श्रेणी II (भराजपत्रित) श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद (नागर विमानन विभाग) भर्ती नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा लागू होना :—इन नियमों को मुख्यालय कार्यालय, नागर विमानन विभाग, ग्रुप 'ख' (भराजपत्रित), ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' पद (नागर विमानन विभाग) भर्ती (पंचम संशोधन) नियम, 1979 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्यालय कार्यालय नागर विमानन विभाग श्रेणी II (भराजपत्रित), श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद (नागर विमानन विभाग) भर्ती नियमावली, 1972 के अंतर्गत,

(क) नियम 7 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

"7. अपवाद :—ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, प्रायु सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।"

(ख) अनुसूची में, पुस्तकालय सहायक के पद से संबंधित क्रम सं० 10 के सामने—

- (i) कालम 2 के अंतर्गत इंदराज के लिए इंदराज "2" प्रतिस्थापित किया जाए,
- (ii) कालम 3 के अंतर्गत इंदराज के स्थान पर "सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप ग, अराजपत्रित, गैर-लिपिक वर्गीय" इंदराज प्रतिस्थापित किया जाए,
- (iii) कालम 4 के अंतर्गत इंदराज के लिए इंदराज "क० 260-6-290-६० री०-6-326-६० गी०-8-390-10-400" प्रतिस्थापित किया जाए,
- (iv) कालम 6 के अंतर्गत इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज और नोट प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् "आयु 18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

नोट.—आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत में (प्रधान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

[सं० ए-12018/8/78-ई-1(बी०ई०)]

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 29th March, 1979

G.S.R. 612.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Headquarters Office, Civil Aviation Department, Class II (non-Gazetted), Class III and Class IV posts (Civil Aviation Department) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Headquarters Office, Civil Aviation Department,

Group B (non-Gazetted), Group C and Group D posts (Civil Aviation Department) Recruitment (fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Headquarters Office, Civil Aviation Department, Class II (non-Gazetted), Class III and Class IV posts (Civil Aviation Department) Recruitment Rules, 1972.

(a) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

(b) in the Schedule, against serial No. 10 relating to the post of Library Assistant,—

(i) for the entry under column 2, the entry "2" shall be substituted,

(ii) for the entry under column 3, the entry "General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial" shall be substituted ;

(iii) for the entry under column 4, the entry "Rs. 260-6-290-EB-6-326-EB-8-390-10-400" shall be substituted;

(iv) for the entry under column 6, the following entry and note shall be substituted, namely :—

"Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years)

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)."

[No. A-12018/8/78-EI.(VE)]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

सा०का०वि० 613.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा नागर विमानन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुवादक ग्रेड ('ग्रुप "ग" अराजपत्रित) पद पर भर्ती के तरीके का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा लागू होना :—इन नियमों को नागर विमानन विभाग अधीनस्थ कार्यालय, हिन्दी अनुवादक ग्रेड 1 (ग्रुप "ग" पद) भर्ती नियमावली 1979 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पद की संख्या इसका वर्गीकरण तथा उससे संबद्ध वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निविष्ट हैं।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि :—उक्त पद के लिए भर्ती के तरीके, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और अन्य सम्बद्ध मामले आदि वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 5 में 13 में निविष्ट हैं।

4. अयोग्यता :—कोई भी ऐसा व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह किया है जिसका/जिसकी पति या पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध या विवाह कर लिया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वे किसी भी व्यक्ति को इन नियमों से छूट दे सकती हैं।

5. छूट देने का अधिकार :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वे आदेश द्वारा विहित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकती हैं।

6. अपवाद :—ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण आयु में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

पदसूची

नागर विमानन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अन्तर्बादक ग्रेड 1 के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	क्या पद खाली अथवा गैर खाली है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अनुवादक ग्रेड 1	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' अराज- पत्रित लिपिक वर्गीय	र० 550-20-650-25 800	खाली	35 वर्ष	अनिवार्य : (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में स्नात- कोत्तर स्तर की परीक्षा पास की हो और स्नातक स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में ली हो या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की हो और स्नातक स्तर की परीक्षा में हिन्दी एक विषय रहा हो। अथवा किसी विषय में स्नातकोत्तर या उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और स्नातक स्तर की परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय लिए हों। अथवा स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से पास की हो और स्नातक स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय रहा हो। (ख) संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान (ग) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/अथवा अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। ऐच्छिक : 1. पत्रकारिता का अनुभव 2. किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति धारकों के मामले में लागू होंगी	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न तरीकों से घरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में उन ग्रेडों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति की जाती है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसका गठन क्या होगा	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा और बोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	नागर विमानन विभाग में इसी ग्रेड में पांच वर्ष की निय- मित सेवा वाले हिन्दी अनु- वादक ग्रेड II (खण्ड 425- 700 संशोधित वर्तमान) में से। प्रतिनियुक्ति : समान पद पर कार्यरत उन	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे :— 1. स्टेशन का वरिष्ठतम नियंत्रक —अध्यक्ष 2. स्टेशन का उनसे अगला वरिष्ठतम नियंत्रक	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद के कार्य में लगे हों और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक और अन्य शर्तें पूरी करते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि : साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं।	3. हिन्दी अधिकारी —नदस्य	

[सं. 12018/1/77-हिन्दी (बी०ई०)]
गिरधर गोपाल, अवर सचिव

New Delhi, the 6th April, 1979

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Hindi Translator Grade I (Group C Non-Gazetted) post in the Subordinate Offices of the Civil Aviation Department, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Civil Aviation Department, Subordinate Offices Hindi Translator Grade I (Group C post) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so, doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Translator Grade I in the Subordinate Offices of the CAD.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-Selection post.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator Grade I	1	General Central Service Group C Non-Gazetted Ministerial	Rs. 550-20-650-25-800	Selection	35 years	Essential : (a) Masters Degree in Hindi with English as a subject at Degree level or Masters Degree in English with Hindi as a subject at Degree level OR Masters or Equivalent degree in any subject with Hindi and English as subjects at Degree level. OR Masters or Equivalent Degree in any subject with Hindi medium and English has a subject at Degree level. (b) Adequate grounding in Sanskrit. (c) About 3 years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English into Hindi and vice-versa. Desirable : 1. Journalistic experience. 2. Knowledge of any other modern Indian Language.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion :—From Hindi Translators grade II (Rs. 425-700 revised) in the C.A.D. with 5 years regular service in the grade. Deputation : From amongst persons holding analogous posts and engaged in translation work in Central Govt. Offices and possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruitment. (period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.)	Group 'C' D.P.C. 1. Senior most Controller at the Station—Chairman 2. Next Senior most Controller at the station —Member 3. Hindi Officer—Member	Not applicable

[No. A-12018/1/77-Hindi (VE)]
GIRDHAR GOPAL, Under Secy.

निर्माण और आपास मंचालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

सा०का०नि० 614.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (क), और (ज) के माध्यम से, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबन्धन और शर्तें) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबन्धन और शर्तें) संशोधन नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबन्धन और शर्तें) नियम, 1974 के नियम 4 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- “(3) इसके अतिरिक्त, अंशकालिक अध्यक्ष, आयोग का कार्य करने के लिए अपने निवास-स्थान से कार्यालय और कार्यालय से निवास स्थान आने जाने के लिए मुक्त परिवहन सुविधाएं पाने का हकदार होगा।”

[के०-11011/4/78-एल०एस०जी०/डी०डी०बी०बी०]
कृष्ण प्रताप, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 2nd April, 1979

G.S.R. 614.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clauses (a) and (h) of sub-section (2) of that section, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Urban Art Commission (Terms and conditions of Service) Rules, 1974 namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Terms and conditions of Service) Amendment Rules, 1979.

9 GI/79--9

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Urban Art Commission (Term and conditions of Service) Rules, 1974, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3) The part-time Chairman shall, in addition, be entitled to free transport facilities for journeys from his residence/office to the office of the Commission for attending the work of the Commission and for dropping him back to his residence/office”.

[No. K-11011/4/78-LSG/DDVB]
KRISHNA PRATAP, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1979

सा०का०नि० 615.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय तथा क्षेत्रीय लेखा मामली डिपो (श्रेणी-III पद) भर्ती नियम, 1974 का और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामतः—

1. (1) इन नियमों को भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय तथा क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो (श्रेणी-III पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारत सरकार, लेखन सामग्री कार्यालय और क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो (श्रेणी-III पद) भर्ती नियम, 1974 में :—

(1) नियम 7 में “आरक्षण तथा अन्य रियायतें” के स्थान पर “आरक्षण, आयु सीमा में छील तथा अन्य रियायतें” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) अनुसूची में,—

(क) कालम 11 के अंतर्गत भण्डारी के पद से संबंधित क्रम सं० 2 के आगे दिये गये संवराज के स्थान पर निम्नलिखित संवराज प्रतिस्थापित किए जाएं; नामतः—

"ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा वाला उप मण्डारी जिसके न मिलने पर संबंधित ग्रेडों में, 3 वर्ष की सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक प्रभारी तथा 5 वर्ष की सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक।"

- (ख) कालम 11 के अंतर्गत उप-मण्डारी के पद से संबंधित क्रम सं० 3 के आगे दिए गए इंदराज के स्थान पर, निम्नलिखित इंदराज प्रति स्थापित किये जाएंगे; नामतः—

"ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक जिनके न मिलने पर ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा के साथ निम्न श्रेणी लिपिक जिसमें कम से कम 2 वर्ष मण्डार की सेवा हो।"

- (ग) कालम 11 के अंतर्गत मुख्य लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं० 4 के आगे दिये गये इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामतः—

"संबंधित ग्रेडों में 3 वर्ष की सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक प्रभारी, उप मण्डारी तथा खजान्ची, जिनके न मिलने पर, संबंधित ग्रेडों में 5 वर्ष की सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक तथा भाजु-लिपिक।"

- (घ) कालम 11 के अंतर्गत प्रगति निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं० 5 के आगे दिये गये इंदराज के स्थान पर, निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामतः—

"संबंधित ग्रेडों में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ, खजान्ची, उच्च श्रेणी लिपिक मण्डारी तथा उप मण्डारी।"

- (ङ) कालम 11 के अंतर्गत उच्च श्रेणी लिपिक मण्डारी के के पद से संबंधित क्रम सं० 7 के आगे दिये गये इंदराज के स्थान पर, निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामतः—

"संबंधित ग्रेडों में 5 वर्ष की सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक या भाजुलिपिक।"

[एफ सं० ओ० 15015/4/78-लेबन सामग्री]

ऊषा निगम, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 1979

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India Stationary Office and Regional Stationery Depots (Class III Posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India Stationary Office and Regional Stationery Depots (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India Stationery Office and Regional Stationery Depots (Class III posts) Recruitment Rules, 1974,—

- (1) In rule 7, for the words, "reservations and other concessions" the words "reservation, relaxation of age limit and other concessions" shall be substituted.

(2) In the Schedule,—

- (a) against Serial No. 2 relating to the post of Store Keeper under column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Deputy Store Keeper with 3 years service in the grade failing which UDC Incharge with 3 years service and Upper Division Clerks with 5 years service in the respective grades."

- (b) against Serial No. 3 relating to the post of Deputy Store Keeper under column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Upper Division Clerks with 5 years service in the grade failing which Lower Division Clerks with 10 years service in the grade of which at least 2 years in the Store side."

- (c) against Serial No. 4 relating to the post of Head Clerk under column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Upper Division Clerks Incharge, Deputy Store Keeper and Cashier with 3 years service in the respective grades failing which U.D.C. and Stenographers with 5 years service in the respective grades."

- (d) against Serial No. 5 relating to the post of Progress Inspector under column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Cashier, Upper Division Clerk Incharge and Deputy Store Keeper with 3 years regular service in the respective grades."

- (e) against Serial No. 7 relating to the post of Upper Division Clerk Incharge under column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Upper Division Clerk or Stenographer with 5 years service in the respective grades."

[F. No. O-15015/4/78-Sty.]

USHA NIGAM, Under Secy.

अम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

बुद्धि-पत्र

सा० का० नि० 616.—भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 948, दिनांक 12 जुलाई, 1978 में, जो भारत के दिनांक 22 जुलाई, 1978 के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 1709 और 1710 पर प्रकाशित हुई, पृष्ठ 1709 पर स्तम्भ 2 की—

- (i) टीसरी लाइन में,

"खंड (vii) के बाव" के स्थान पर

"खंड (viii) के बाव" पढ़ा जाये;

- (ii) पांचवीं लाइन में,

लाइन के आरम्भ में आने वाले

"(viii)" के स्थान पर,

"(ix)" पढ़ा जाय।

[सं० एस-16011(4)/75-एल० डब्ल्यू०]

के० डी० माधवी, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th April, 1979

CORRIGENDUM

G.S.R. 616.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. GSR 948, dated the

12th July, 1978, published at pages 1710 and 1711 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd July, 1978, at page 1711,—

- (i) in line 22,
for "after clause (vii)"
read "after clause (viii)";
- (ii) in line 24,
for "(viii)" occurring in the beginning of the line,
read "(ix)".

[No. S-16011(4)/75-LW]

K. D. GANDHI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 617.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1914 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संपादन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. इन नियमों का नाम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (9वां संशोधन) नियम, 1979 है।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 173-न के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) नियम 196-ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

196-ख खराब या क्षतिग्रस्त उत्पाद-शुल्क माल का व्ययन :— यदि नियम 192 के अधीन अभिप्राप्त कोई उत्पाद-शुल्क माल, प्राप्त होने पर खराब या क्षतिग्रस्त अथवा किसी कारणवश आवेदक को आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे माल का भण्डार अलग किया जाएगा और आवेदक,—

(क) समुचित अधिकारी को कम से कम 24 घंटे की पत्र लिखित में पूर्व सूचना देकर

- (1) ऐसे माल को, माल के उस मूल विनिर्माता को वापस कर सकता है जिससे आवेदक ने बंधन के अधीन माल अभि-प्राप्त किया है और इस प्रकार वापस किए गए प्रत्येक माल को मूल विनिर्माता के शुल्क-प्रसंवल-स्टाक में जोड़ दिया जाएगा और तदनुसार ही उसकी बाबत संव्यवहार किया जाएगा। आवेदक ऐसी किसी हानि या कमी के लिए लेख-वेय होगा जो माल को उसके परिसर में मूल विनिर्माता के स्थान तक ले जाने के दौरान हो, या
- (2) शुल्क संवदन कर के ऐसे माल की निकासी कर सकता है। ऐसे माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन यदि कोई है, वह होगा जो ऐसे माल को आवेदक के परिसर में हटाने की वास्तविक तारीख को प्रवर्तन में है, या

(ख) उपयुक्त कार्यरत अधिकारी को कम से कम सात दिन पहले ऐसे माल की मात्रा और वह तारीख जिसको उसे नष्ट करने का प्रस्ताव है, लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात् और उन सभी शर्तों

का पालन करने के पश्चात् जो कलक्टर साधारण या विशेष आवेश द्वारा विहित करे, ऐसे माल को, जहाँ उस पर संवेय शुल्क से छूट दे दी गई है, नष्ट कर सकता है।

3. उक्त नियमों के नियम 196-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“196-ख खराब या क्षतिग्रस्त उत्पाद-शुल्क माल का व्ययन :— यदि नियम 192 के अधीन अभिप्राप्त कोई उत्पाद-शुल्क माल, प्राप्त होने पर खराब या क्षतिग्रस्त अथवा किसी कारणवश आवेदक को आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे माल का भण्डार अलग किया जाएगा और आवेदक, समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने और विवेक अनुमति दिए जाने के पश्चात् :—

- (1) ऐसे माल को, माल के उस मूल विनिर्माता को वापस कर सकता है जिसने आवेदक ने बंधन के अधीन माल अभि-प्राप्त किया है और इस प्रकार वापस किए गए प्रत्येक माल को मूल विनिर्माता के शुल्क-प्रसंवल-स्टाक में जोड़ दिया जाएगा और तदनुसार ही उसकी बाबत संव्यवहार किया जाएगा। आवेदक ऐसी किसी हानि या कमी के लिए लेखवेय होगा जो माल को उसके परिसर से मूल विनिर्माता के स्थान तक ले जाने के दौरान हो, या
- (2) शुल्क संवदन कर के ऐसे माल की निकासी कर सकता है। ऐसे माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई है, वह होगा जो ऐसे माल को आवेदक के परिसर में हटाने की वास्तविक तारीख को प्रवर्तन में है, या
- (3) ऐसे माल को, जहाँ उस पर संवेय शुल्क से छूट दे दी गई है, नष्ट कर सकता है।”

[अधिसूचना 162/79 के. उं. शुं. / कां. सं. 212/16/एस/77-के. शुं. शुं.-6]

के. डी. तायल, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st April, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 617.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (9th Amendment) Rules, 1979.

2. In rule 173-P of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3) For rule 196-B the following rule shall be substituted namely :—

196-B. Disposal of defective or damaged excisable goods.—If any excisable goods, obtained under rule 192 are on receipt found to be defective or damaged or unsuitable to the needs of the applicant for any reason, such goods shall be stored separately and the applicant may,—

(a) after informing the proper officer in writing at least 24 hours in advance,—

(i) return such goods to the original manufacturer of the goods from whom the applicant had

obtained them under bond and every such returned goods shall be added to the non-duty-paid stock of the original manufacturer and dealt with accordingly. The applicant shall be accountable for the loss or deficiency if any, during transport of the goods from the applicant's premises to the place of the original manufacturer; or

(ii) clear such goods on payment of duty, the rate of duty and the tariff valuation if any, applicable to such goods being the rate and valuation, if any, in force on the date of actual removal of such goods from the applicant's premises; or

(b) after informing the proper officer in writing at least seven days in advance the quantity of such goods and the date on which he proposes to destroy them and after observing such conditions as may be prescribed by the Collector by general or special order, destroy such goods where the duty payable thereon has been remitted.

3. After rule 196-A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

“196-B. Disposal of defective or damaged excisable goods.—If any excisable goods obtained under

rule 192 are on receipt found to be defective or damaged or unsuitable to the needs of the applicant for any reason, such goods shall be stored separately and the applicant may, after examination by, and with the written permission of, the proper officer—

(i) return such goods to the original manufacturer of the goods from whom the applicant had obtained them under bond and every such returned goods shall be added to the non-duty paid stock of the original manufacturer and dealt with accordingly. The applicant shall be accountable for the loss or deficiency, if any, during transport of the goods from the applicant's premises to the place of the original manufacturer; or

(ii) clear such goods on payment of duty, the rate of duty and the tariff valuation if any, applicable to such goods being the rate and valuation, if any, in force on the date of actual removal of such goods from the applicant's premises; or

(iii) destroy such goods, where the duty payable thereon has been remitted.”

[No. 162/79-C.E./F. No. 212/16/S/77-CX. 6]

K. D. TAYAL, Under Secy.